



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 35] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 1—सितम्बर 7, 2007 (भाद्रपद 10, 1929)
No. 35] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 1—SEPTEMBER 7, 2007 (BHADRA 10, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुंबई-400005, दिनांक 2 अगस्त 2007

बैंकवि. सं. पीएसबीडी. 1174/16.01.127/2007-08--भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप धारा (6) के खण्ड (ग) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा निदेश देता है कि 30 जुलाई 2007 से उपर्युक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित परिवर्तन किया जाएगा:--

“यूटीआई बैंक लिमिटेड” शब्दों की जगह “एक्सिस बैंक लिमिटेड” शब्दों का प्रयोग किया जाएगा।

आनंद सिन्हा
कार्यपालक निदेशक

भारतीय स्टेट बैंक

मुंबई, दिनांक 15 जुलाई 2007

सं. एसबीडी क्र. 05/2007-08--भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 29(1) के निबंधनानुसार भारतीय स्टेट बैंक ने स्टेट बैंक आफ हैदराबाद के निदेशक मंडल से परामर्श करके तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से श्री अमिताभ गुहा को दिनांक 22.05.2007 से 21.05.2008 तक (दोनों दिन सम्मिलित) के लिए स्टेट बैंक आफ हैदराबाद के प्रबंध-निदेशक पद पर पुनः नियुक्त किया है।

ओम प्रकाश भट
अध्यक्ष

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
(श्रम मंत्रालय, भारत सरकार)

आंध्र प्रदेश, दिनांक 26 जुलाई 2007

सं. क.भ.नि. सं./अ.कें.आ./दअं/जी.एल.-240ए/1(4) कर अधिसूचना/2007/583 कि. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने निम्नलिखित स्थापनाओं के संबंध में पाया है कि इन स्थापनाओं के नियोजन एवं अधिकतम कर्मचारी, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 के 19) के उपबंधों को उनके निम्न विभिन्न स्थापनाओं को लागू किए जाने हेतु सहमत हैं:

क्रम सं.	कोड सं.	स्थापना का नाम	व्याप्ति व सहयति की तिथि
1.	2.	3.	4.
1.	टीएन/एमबी/65719	मे. केरी ड्राइंग एंड कनवर्थिंग सिस्टम, चेन्नै	01.03.2005
2.	टीएन/सीएमबी/72195	मे. चकारा इलेक्ट्रो स्टैपिंग, कोयंबटूर	01.04.2005
3.	टीएन/एमबी/65664	मे. हैरिस एण्ड मेन्युल, चेन्नै	01.06.2004
4.	टीएन/एमबी/65668	मे. हरि कुमार एंटरप्राइजेस, चेन्नै	01.01.2005
5.	केएन/बीएनजी/41057	मे. निसिकी टेक्नॉलॉजीस प्रा. लि, बंगलूर	01.05.2005
6.	केएन/बीएनजी/26964	मे. वर्टेक्स नियोमैटिक्स प्रा. लि, बंगलूर	01.04.2005
7.	केएन/26655	मे. टेलनेटिक्स प्रा. लि	01.12.2004
8.	केएन/बीएनजी/26426	मे. शेल्क सॉफ्टवेयर प्रा. लि, बंगलूर	01.06.2004
9.	केएन/26854	मे. वीविटी इंडिया प्रा. लि.	01.02.2005
10.	केआर/केएनआर/18319	मे. सी.आर.मिल्स, कण्णूर	01.05.2005
11.	केआर/केएनआर/18320	मे. राजीव मिल्स, कण्णूर	01.05.2005
12.	केआर/21200	मे. जीके न्युमैटिक्स, कोचिन	01.04.2005
13.	केआर/केएनआर/18315	मे. निशांत ट्रेवल्स, कण्णूर	01.04.2005
14.	केआर/केएनआर/18331	मे. के.डी. होलसेल को.ऑप.कंज्युमर्स प्रा. लि, कण्णूर	01.07.2005
15.	केआर/केएनआर/18322	मे. कृष्णादयाल मोटर्स, कण्णूर	01.06.2005
16.	केआर/केएनआर/18324	मे. न्यु दोहा ट्रेवल्स, कण्णूर	01.06.2005
17.	केआर/केएनआर/18323	मे. हरिश्री मोटर सर्विस, कण्णूर	01.06.2005
18.	केआर/19696	मे. तालपिल्ली तालुक को.ऑप.कॉर्पोरेशन एजुकेशनल सोसाइटी, कोच्ची	01.01.2005
19.	केआर/केसी/21174	मे. मारिया एजन्सीस, कोच्ची	01.10.2004
20.	केआर/केसी/21187	मे. राम स्टील्स, कोच्ची	01.04.2005
21.	केआर/केसी/21231	मे. सन सिरैमिक्स, कोच्ची	01.06.2005
22.	केआर/केसी/21186	मे. देवी इंजीनियर्स, कोच्ची	01.04.2005
23.	केआर/केसी/19924	मे. दिग्विजय विद्यागुर पब्लिशिंग लि, कोच्ची	01.04.2004
24.	केआर/केसी/21088	मे. पायलट्स इंडिया, कोच्ची	01.02.2005
25.	केआर/केसी/21161	मे. द रिवर रिट्रीट, कोच्ची	01.03.2005
26.	टीएन/50601	मे. ट्रस्ट 1कंसल्टन्सी लि.	01.12.2003
27.	टीएन/50860	मे. तमिलनाडु इंडस्ट्रीज गायर्ड्स प्रा. लि प्रोमोशन ब्यूरो, चेन्नै	01.10.2004

28.	टीएन/पीसी/689	मे. टेलिकैक्स मेडिकल(पी) लि, पांडिचेरी	01.05.1997
29.	टीएन/पीसी/1264	मे. पुदुमे पांडिचेरी पुदुमे हैंडीक्राफ्ट्स आर्टिसन को.ऑप सोसाइटी लि.	01.03.2002
30.	टीएन/पीसी/1384	मे. मीना पॉलिमर्स, आर.एस.नं.63/3, पांडिचेरी	01.01.2005
31.	टीएन/पीसी/1403	मे. पांडिचेरी पोल्ट्स एण्ड फैब्रिकेटर्स	01.12.2004
32.	टीएन/पीसी/1383	मे. मीना फाइबर ग्लास इंडस्ट्रीज, पांडिचेरी	01.01.2005
33.	टीएन/पीसी/1385	मे. प्रेम इंजीनियरिंग कन्सर्न, करइक्कल	01.02.2005
34.	टीएन/सीएचएन/65248	मे. तिरुवल्लूर डिस्ट्रिक्ट को.ऑप प्रिंटिंग वर्क्स लि.	01.04.2001
35.	टीएन/65164	मे. श्री अम्मान इलेक्ट्रिकल्स, चेन्नै	01.03.2002
36.	टीएन/सीएचएन/65199	मे. एस जे जे एंटरप्राइजेस, श्रीपेरंबदूर	18.02.2002
37.	टीएन/सीएचएन/65153	मे. ड्युबॉन केमिकल्स(मैनु) प्रा लि, चेन्नै	01.01.2002
38.	टीएन/सीएचएन/65281	मे. जोति हाउस कीपिंग सर्विस, चेन्नै	01.01.2003
39.	टीएन/सीएचएन/65180	मे. वेस्ट अन्नानगर मिल्क कंजुमर्स को.ऑप शॉप	01.04.2002
40.	टीएन/सीएचएन/65414	मे. रिचर्ड्स एण्ड जॉन वेसली इंजीनियरिंग, चेन्नै	05.10.2003
41.	टीएन/सीएचएन/65631	मे. इंडियन इवानजेलिकल एजुकेशन ट्रस्ट	01.08.2004
42.	टीएन/65645	मे. सेवन ग्लूकॉन इंडिया प्रा. लि, चेन्नै	01.12.2004
43.	टीएन/65338	मे. पुगल केमिकल प्लांट एण्ड एक्विपमेंट्स प्रा. लि, चेन्नै	01.04.2003
44.	टीएन/65323	मे. जेआरके हाईटेक ऑफिस डिजाइंस प्रा.लि, चेन्नै	01.04.2003
45.	टीएन/65270	मे. प्रतिष्ठ एरेक्शन मॉटेनेंस सर्विस, चेन्नै	01.01.2003
46.	टीएन/65427	मे. वी के इंडस्ट्रीज, अंबतूर, चेन्नै	01.12.2003
47.	टीएन/65416	मे. सनमिना - एससीआई इंडिया(पी) लि, चेन्नै	01.10.2003
48.	टीएन/51340	मे. एरगोनॉट लॉजिस्टिक्स प्रा. लि, चेन्नै	01.05.2005
49.	टीएन/65762	मे. चेन्नै हाईड्रॉलिक एण्ड इंजीनियरिंग कं, चेन्नै	01.05.2005
50.	टीएन/65458	मे. भारत प्रेसिंग्स, तिरुवल्लूर, चेन्नै	01.02.2004
51.	टीएन/65364	मे. इंडिया वेप्रो इनफॉर्मेटिक्स प्रा.लि, चेन्नै	01.05.2003
52.	टीएन/65336	मे. शक्ति एंटरप्राइजेस, तिरुवल्लूर, चेन्नै	02.05.2003
53.	टीएन/65196	मे. युल्लो इंजीनियरिंग प्रा.लि, चेन्नै	01.04.2002
54.	टीएन/65165	मे. लिआंगा सेक्युरिटी सर्विसेस, चेन्नै	01.06.2001
55.	टीएन/65695	मे. एंड्युरा सुपरैक्स प्रा.लि, चेन्नै	01.03.2005
56.	टीएन/65708	मे. एंडोप्लस ऑर्थोपेडिक्स इंडिया प्रा. लि.	01.10.2004
57.	टीएन/65676	मे. विजय डेकोर जी.के.एम. कॉलोनी, चेन्नै	01.01.2005
58.	टीएन/65361	मे. ग्लोब सुहैनी इंडिया प्रा. लि, चेन्नै	01.06.2003
59.	टीएन/65265	मे. प्रेसिशन कंट्रोल प्रॉडक्ट्स, चेन्नै	01.12.2002
60.	टीएन/65317	मे. पी.पी.के. एंटरप्राइजेस, अंबतूर, चेन्नै	01.04.2003
61.	केआर/केसी/21060	मे. अन्ना सिरॅमिक्स, कोच्ची, त्रिशूर(जिला)	01.01.2005
62.	केआर/केसी/13552	मे. होटल वनमाला कुसुमम, कोच्ची	01.01.1992
63.	केआर/केसी/13474	मे. क्वालिटी पॉलिमर्स(लक्ष्मी एजेन्सीज)कोच्ची	01.11.1990
64.	केआर/केसी/13473	मे. क्वालिटी प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, कोच्ची	01.11.1990
65.	केआर/19981	मे. काइटेक्स इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नॉलॉजी, कोच्ची	01.08.2004
66.	केआर/केके/23010	मे. कैरली सेल्स कॉर्प. कोविकोड	01.04.2005

67.	केआर/21188	मे. केरला स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ वायरलॉजी एण्ड इंफेक्शियस डिजीजेस, कोच्ची	01.04.2005
68.	केआर/केके/14701	मे. ट्रिनिटी पब्लिक स्कूल, कोषिकोड	01.01.1997
69.	टीएन/एएमबी/65854	मे. कौसल्या एंटरप्राइजेस	01.07.2005
70.	टीएन/एएमबी/65855	मे. हरगोस एलॉय फाउंड्री	01.09.2005
71.	टीएन/एएमबी/65857	मे. वीआरडीएस कंसल्टंट्स	01.11.2005
72.	टीएन/एएमबी/65880	मे. सिम्हास लीजिस्टिक्स प्रा. लि.	01.08.2005
73.	टीएन/एएमबी/65928	मे. लिज़मैन इंजीनियरिंग	01.02.2006
74.	टीएन/एएमबी/65859	मे. हाईटेक इंजनियर्स	01.11.2005
75.	टीएन/एएमबी/65909	मे. एनईटीज़ेडएससीएच टेक्नीलोजीस इंडिया प्रा. लि.	01.10.2005
76.	टीएन/51666	मे. डबी क्लोथिंग	01.12.2005
77.	टीएन/टीआई/55550	मे. तिरुपति गैस सर्विस	01.04.2005
78.	टीएन/टीआई/55561	मे. कुमारी मेट्रिकुलेशन स्कूल	05.04.2005
79.	टीएन/एसएलएम/47846	मे. द टाइटन स्कूल	01.09.2004
80.	टीएन/एमडी/57604	मे. जेन सर्विस एण्ड कंट्रोल्स	01.01.2006
81.	टीएन/51714	मे. न्युलाइन्स बिजनेस इंडिया लि	01.01.2006
82.	टीएन/38959	मे. के.वी.के स्क्रीनप्रिंटिंग फैशन ज्वेलरी युनिट सोसाइटी, वेल्लूर	01.12.2004
83.	टीएन/38939	मे. वंदवासी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉईस को-ऑप थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसाइटी	01.12.2004
84.	टीएन/38932	मे. कॉडकुप्पम मिल्क प्रोड्यूसर्स को.ऑप सोसाइटी	06.07.2004
85.	टीएन/55628	मे. पॉन शिवा एंटरप्राइजेस, टूटिकोरिन	01.08.2005
86.	टीएन/55326	मे. श्रीवैकुंठम तालुक को.ऑप हाउसिंग सोसाइटी लि, श्रीवैकुंठम	14.12.2004
87.	टीएन/55257	मे. नारायणन वुड वर्क्स, टूटिकोरिन	02.08.2004
88.	टीएन/65418	मे. एम.एम.सेक्युरिटी सर्विस, चेन्नै	01.10.2003
89.	टीएन/65785	मे. श्री संतानश्रीनिवास पेरुमाल एजेंसी, चेन्नै	01.06.2005
90.	टीएन/65263	मे. मार्स कंस्ट्रक्शन, तिरुनिनरावुर	01.11.2002
91.	पीसी/1368	मे. सिंहा टेक्सटाइल्स एण्ड एंटरप्राइजेस (पी) लि, पांडिचेरी	01.08.2004
92.	पीसी/1256	मे. अप्पसामी मेडिकल एक्विपमेंट्स(पी)लि, पांडि	01.12.2002
93.	पीसी/1273	मे. ईको केयर इंडिया लि., पांडिचेरी	01.12.2002
94.	पीसी/1442	मे. यूथ हॉस्टल, पांडिचेरी	01.07.2005
95.	टीएन/44538	मे. अंधेरी ट्रस्ट-इंडिया, त्रिची	01.05.2005
96.	टीएन/74033	मे. वंदवासी पी.वी.एम्प.टीस एण्ड एडेड स्कूल टीचर्स को.ऑप थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसाइटी	01.08.2005
97.	टीएन/44529	मे. फातिमा हॉस्पिटल, पेरम्बलूर	01.04.2005
98.	टीएन/57525	मे. एजीएस ऑटोमोबाइल्स, मदुरै	01.08.2005
99.	टीएन/57273	मे. ए.2996, ओतकडई पी.ए.सी.बैंक, मदुरै	01.12.2004
100.	टीएन/51770	मे. हॉटकोर्सस इंडिया प्रा. लि, चेन्नै	01.02.2006
101.	टीएन/57177	मे. श्री अलगर इंडेन एजेंसी, मदुरै	01.11.2004

102.	टीएन/72750	मे. सैलमर इंफर्मेसन सर्विसेस प्रा.लि, कोयंबतूर	01.08.2006
103.	टीएन/72333	मे. ओल्को टेक्निक इंडिया प्रा.लि, कोयंबतूर	01.07.2005
104.	टीएन/72631	मे. नारंगी इंडस्ट्रिज प्रा.लि, कोयंबतूर	01.02.2006
105.	टीएन/70080	मे. नमस्कल को.ऑप अर्बन बैंक लि, नमस्कल	01.01.2005
106.	टीएन/57530	मे. फिलोम प्रॉसेस, शिवकाशी	01.08.2005
107.	टीएन/55043	मे. सीएसआई कन्याकुमारी डायोसीस, नागरकोइल	01.01.2003
108.	टीएन/वीएल/74153	मे. अरुलमिगु वैकुण्ठपेरुमाल तिरुकोविल, नागरकोइल	01.05.2006
109.	टीएन/वीएल/74116	मे. अरुलमिगु लक्ष्मी नरसिंहस्वामी तिरुकोविल शोलिंगुर	01.03.2006
110.	टीएन/वीएल/74123	मे. अरुलमिगु सुब्रमण्यस्वामी तिरुकोविल, कंची	01.03.2006
111.	टीएन/वीएल/74129	मे. अरुलमिगु दक्षिणमूर्तिस्वामी तिरुकोविल गोविंदवाडी	01.03.2006
112.	टीएन/वीएल/74118	मे. अरुलमिगु कमलाविनायगार तिरुकोविल शोलिंगुर	01.03.2006
113.	टीएन/वीएल/74121	मे. अरुलमिगु कदंबनाथस्वामी तिरुकोविल उत्तिरामेनुर	01.03.2006
114.	टीएन/वीएल/74139	मे. अरुलमिगु अगतीश्वरारस्वामी तिरुकोविल सिरुवेल्लूर	01.03.2006
115.	टीएन/51594	मे. युनिट रन कैंटीन(सीएसडी), चेन्नै	01.10.2005
116.	टीएन/51566	मे. ओएसजी इंडिया प्रा.लि, चेन्नै	01.10.2005
117.	टीएन/51595	मे. आई मंत्रास(इंडिया) प्रा.लि, चेन्नै	01.10.2005
118.	टीएन/एएमबी/65962	मे. अरुलमिगु पदवत्तम्मान टेंपल, पाडी, चेन्नै	01.03.2006
119.	टीएन/एएमबी/65995	मे. अरुलमिगु सेंगलम्मान टेंपल, सेंगुलिवरम	01.03.2006
120.	टीएन/एएमबी/66014	मे. अरुलमिगु देवी पेरिया पयताम्मान तिरुकोविल, चेन्नै	01.03.2006
121.	टीएन/एएमबी/66012	मे. अरुलमिगु पिडारी मंगलिअम्मान एंड सिद्धि विनायगार टेंपल, अन्नानगर, चेन्नै	01.03.2006
122.	टीएन/एएमबी/66013	मे. अरुलमिगु माकालिअम्मान तिरुकोविल, अन्नानगर, चेन्नै	01.03.2006
123.	टीएन/एएमबी/65963	मे. अरुलमिगु सुब्रमण्यस्वामी तिरुकोविल, वल्लकोट्टई विलेज	01.03.2006
124.	टीएन/एमडी/57478	मे. मूर्ति एंटरप्राइजेस, शिवकाशी	01.06.2005
125.	टीएन/एमडी/57507	मे. एनर्जी कैपेसिटर्स प्रा.लि, राजपालयम	01.07.2005
126.	टीएन/एमडी/42480	मे. एसपी. एसपीएल.62, अमनकुनाथम पीएसबी, अमनकुनाथम	01.03.2004
127.	टीएन/एमडी/57639	मे. डीजल पावर सिस्टम, मदुरै	01.02.2006
128.	टीएन/एमडी/57474	मे. सिवन फैब्रिकेटर्स, मदुरै	01.06.2005
129.	टीएन/एसएलएम/70135	मे. सिद्धार्थ विलेज स्कूल, होसूर	01.11.2004
130.	टीएन/66025	मे. सन एंड जय इंजीनियरिंग कंसल्टंट्स (पी) लि, चेन्नै	01.11.2005
131.	टीएन/66027	मे. मोबिस इंडिया लि, श्रीपेरंबुदुर	01.04.2006

132.	टीएन/66019	मे. अरुलमिगु पिढारी लक्ष्मी अम्मन वाम्बईयारा तिरुकोविल, चेन्नै	01.03.2006
133.	टीएन/66028	मे. गोरंटल फार्म प्रा. लि, चेन्नै	01.12.2005
134.	टीएन/66015	मे. अरुलमिगु देवी तिरुमणिअम्मन टेंपल, चेन्नै	01.03.2006
135.	टीएन/एमडी/57746	मे. डी.आर.टेक, दिडिगल	01.06.2006
136.	टीएन/एमडी/57642	मे. अरुलमिगु कालहेवेश्वरसामी तिरुकोविल, दिडिगल	01.03.2006
137.	टीएन/एमडी/57751	मे. ईश्वरी इंजीनियरिंग कंसल्टंसी, मदुरै	01.06.2006
138.	टीएन/एमडीयु/57573	मे. होटल पद्मम, मदुरै	01.11.2005
139.	टीएन/टीएम/61018	मे. इस्टिट्यूट फॉर इंफरमेशन इंडस्ट्री	01.06.2006
140.	टीएन/एमडी/57628	मे. अरुलमिगु कूचलगार तिरुकोइल मदुरै टाउन, मदुरै	01.03.2006
141.	टीएन/एमडी/57624	मे. अरुलमिगु गोमरिअम्मन तिरुकोइल, वीरपाण्डी	01.03.2006
142.	टीएन/एमडी/57630	मे. अरुलमिगु कन्नेयवर मुदैयार तिरुकोइल, वीरपाण्डी	01.03.2006
143.	टीएन/एमडी/57647	मे. अरुलमिगु जनगई मरियम्मन तिरुकोइल शोलयंदन	01.03.2006
144.	टीएन/एमडी/57648	मे. अरुलमिगु एदगनाथसामी तिरुकोइल, तिरुवेदगम	01.03.2006
145.	टीएन/एमडी/57649	मे. अरुलमिगु पेरलयनाथसामी तिरुकोइल, 'ए' धर्मम	01.03.2006
146.	टीएन/एमडी/57650	मे. अरुलमिगु जेनगनारायणपेरुमाल तिरुकोइल, शोलयंदन	01.03.2006
147.	टीएन/एमडी/57619	मे. अरुलमिगु मातन गोपालसामी तिरुकोइल मदुरै	01.03.2006
148.	टीएन/एमडी/57612	मे. अरुलमिगु दंडयुतपाणिसामी टेंपल, मदुरै	01.02.2006
149.	टीएन/एमडी/57625	मे. अरुलमिगु श्री कालिअम्मन तिरुकोइल, बटलगुंडु	01.03.2006
150.	टीएन/एमडी/57613	मे. अरुलमिगु नटराजर तिरुकोइल, नीलकोट्टई टाउन	01.03.2006
151.	टीएन/एमडी/57655	मे. अरुलमिगु सुब्रमण्यसामी तिरुकाइल, तिरुपरनकुंडम, मदुरै	01.03.2006
152.	टीएन/एमडी/57677	मे. शिवा एयर सिस्टम, सीडको, कप्पलूर, मदुरै	01.03.2006
153.	टीएन/सीबीई/56622	मे. एवरशाईन वायर प्रॉडक्ट्स प्रा. लि, कोयंबतूर	01.10.2003
154.	टीएन/50820	मे. क्राउन सोल्युशन्स इंडिया(पी) लि, चेन्नै	01.09.2004
155.	टीएन/एमडी/57668	मे. अरुलमिगु श्री सर्वेश्वरन टेंपल, मदुरै	01.03.2006
156.	टीएन/एमडी/57760	मे. पीपल्स एक्शन फॉर डेवलपमेंट, मदुरै	01.07.2006
157.	टीएन/एमडी/57722	मे. रिसोर्स सेंटर फॉर पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट स्टडीस, मदुरै	01.05.2006

158.	टीएन/एमडी/57721	मे. स्पीच(सोसाइटी फॉर पीपल एजुकेशन एंड एकोनॉमिक चेंज), मदुरै	01.05.2006
159.	टीएन/एमडी/57659	मे. अरुलमिगु कल्ललागर तिरुकोविल, अलगरकोविल, मदुरै	01.03.2006
160.	टीएन/50618	मे. पाम सी.एस.डी. कैंटीन, चेन्नै	01.01.2004
161.	टीएन/एएमबी/66020	मे. अरुलमिगु सुंदरराज पेरुमल तिरुकोइल चेन्नै	01.03.2006
162.	टीएन/एएमबी/65948	मे. अरुलमिगु देवी करुमरिअम्मन, तिरुकोइल, चेन्नै	01.03.2006
163.	टीएन/एएमबी/65993	मे. अरुलमिगु अगतीश्वर स्वामी टेंपल, विल्लीवक्कम, चेन्नै	01.03.2006
164.	टीएन/एएमबी/66038	मे. अरुलमिगु आदिकेशव पेरुमाल भाष्यकारस्वामी टेंपल, श्रीपेरंबुदुर	01.03.2006
165.	टीएन/एएमबी/66002	मे. श्री वीरराघव स्वामी देवस्थानम, तिरुवल्लूर	01.03.2006
166.	टीएन/एएमबी/66005	मे. अरुलमिगु भक्तवत्सल पेरुमाल टेंपल, तिरुनिनरापुर, तिरुवल्लूर	01.03.2006
167.	टीएन/एएमबी/66021	मे. अरुलमिगु सोमनाथस्वामी तिरुकोइल चेन्नै	01.03.2006
168.	टीएन/एएमबी/66057	मे. नेचरसाइन हर्बल्स प्रा.लि, अंबलूर, चेन्नै	01.02.2006
169.	टीएन/एएमबी/66092	मे. अरुलमिगु बालसुब्रमण्य स्वामी टेंपल पोन्नैरी	01.03.2006
170.	टीएन/एएमबी/66045	मे. अरुलमिगु तिरुकची नम्बिगल एंड वरदराज पेरुमल टेंपल, चेन्नै	01.03.2006
171.	टीएन/सीबीई/72870	मे. आर. नटराजन एंड सन्स, कोयंबतूर	01.10.2006
172.	टीएन/एमडी/57589	मे. सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ सोशल कंसर्न्स, मदुरै	01.01.2006
173.	टीएन/एमडी/57653	मे. अरुलमिगु मरिअम्मन तिरुकोविल हरुक्कनगुडी	01.03.2006
174.	टीएन/एमडी/57615	मे. एम.डी(एसपीएल) 199 बोदिनय-कनूर को.ऑप हाउसिंग सोसाइटी लि	01.02.2006
175.	टीएन/एमडीयु/57669	मे. अरुलमिगु सौंदरराज पेरुमाल तिरुकोइल	01.03.2006
176.	टीएन/एमडीयु/57637	मे. श्री कोट्टई मरिअम्मन देवस्थानम दिंडिगल	01.03.2006
177.	टीएन/एमडीयु/57129	मे. एमडी6 दिंडिगल सर्कल को.ऑप एम्प्लाइस को.ऑप थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लि, दिंडिगल	01.09.2004
178.	टीएन/एमडीयु/57132	मे. दिंडिगल डिस्ट्रिक्ट पोलिस एम्प्लाइस को-ऑप थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लि, दिंडिगल	01.09.2004
179.	टीएन/एमडीयु/57667	मे. एस.आर.स्टील इंडस्ट्रीस, दिंडिगल	01.02.2006

180.	टीएन/एमडीयु/57708	मे. अरुलमिगु सेंगुतर कालिअम्मन तिरुकोइल, दिडिगल	01.04.2006
181.	टीएन/एमडीयु/57595	मे. वैकटेश्वरा एंटरप्राइजेस, शिवकाशी	01.12.2005
182.	टीएन/एमडीयु/57681	मे. एसपी.एसपीएल.48, एस. तिरु-वैकटरपुरम प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-ऑप.बैंक, राजपालयम	01.03.2006
183.	टीएन/एमडीयु/57620	मे. अरुलमिगु गोपिनाथस्वामी तिरुकोइल	01.03.2006
184.	टीएन/एमडीयु/57626	मे. अरुलमिगु मूलंतसामी तिरुकोइल	01.03.2006
185.	टीएन/एमडीयु/57621	मे.अरुलमिगु कालमेगापेरुमाल तिरुकोइल	01.03.2006
186.	टीएन/एसएलएम/70289	मे. श्री शक्ति इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग वर्क्स, सेलम.	01.11.2005
187.	टीएन/वीएलआर/74019	मे. अन्नाई टेरेसा टेलरिंग एम्ब्रॉयडरी सोसाइटी, के.वी.कुप्पम	01.05.2005
188.	टीएन/वीएलआर/74037	मे. अरवतिल विमेन मिल्क प्रोड्यूसर्स को.ऑप सोसाइटी, अरवट्ला	01.04.2005
189.	टीएन/टीआई/55625	मे. संतान.एर्जेसीस, टुटिकोरिन	01.08.2005
190.	टीएन/टीआई/55846	मे. मुत्तु कूलर सर्विस, टुटिकोरिन	01.07.2006
191.	टीएन/एएमबी/66090	मे. विमेन्स एजुकेशन एंड इकॉनॉमिक डेवलपमेंट ट्रस्ट, चेन्नै	01.03.2006
192.	टीएन/वीएल/74174	मे. पार्तिबन इंजी. वर्क्स, काटपाडी	01.07.2006
193.	टीएन/पीडीवाई/1536	मे. कंगनियार एंटरप्राइजेस(पी)लि.चेन्नै	01.05.2006
194.	केआर/केसी/21401	मे. सिराजुलउलूम इंग्लिश स्कूल, त्रिशूर	01.03.2006
195.	केआर/केसी/21551	मे. केरला एच.सी.एडवोकेट्स असो. कोच्ची	01.09.2006
196.	केआर/केसी/21462	मे.लाइवप्रिंट ऑफसेट इंक, कोच्ची	01.07.2006
197.	केआर/केसी/21512	मे.हाईटेककोटिंग्स,पी.टी.उषा रोड,कोच्ची	01.04.2006
198.	केआर/केसी/21594	मे. विनीस पॉलिमर्स, आलेप्पी	12.12.2006
199.	केआर/केसी/21590	मे. ओम शंकर सिरेमिक्स, त्रिशूर	01.12.2006
200.	केआर/टीवीएम/22142	मे. राहुल मोटर सर्विस, त्रिवेंद्रम	01.01.2006
201.	केआर/टीवीएम/2069	मे. एम.जी.के-नेट, त्रिवेंद्रम	01.02.2005
202.	केआर/केके/17868	मे. कंजीकोड अपेरल एक्सपोर्ट्स लि, पालक्काड	01.02.2004
203.	केआर/केके/23256	मे.स्किल डेव.एंड कंप्यूटर सेंटर,कालिकट	01.11.2006
204.	केआर/केसी/21537	मे. प्रतिभा क्ले प्रॉडक्ट्स, त्रिशूर	22.09.2006
205.	केआर/केसी/21540	मे. एवरेस्ट फार्मा, त्रिशूर	11.09.2006
206.	केआर/केसी/21437	मे. निशांत एक्सपोर्ट, कोचिन	01.05.2006
207.	केआर/केसी/21495	मे. पुरंदर सेल्स एर्जेसीस, एर्नाकुलम	24.07.2006
208.	केआर/टीवीएम/22121	मे. डॉ.नथानीस डायग्नॉस्टिक क्लिनिक पट्टम	01.09.2005
209.	केआर/केसी/21439	मे. एस एन ए आयुर्वेद नर्सिंग होम प्रा. लि, त्रिशूर	22.05.2006
210.	केआर/केसी/21477	मे. विनूस पार्क, चेरताला,आलेप्पी डि	01.07.2006

211.	केआर/केसी/21475	मे. एन आर दुरिस्ट होम, वेल्सिंगल्लूर त्रिशूर	01.07.2006
212.	केआर/केके/17811	मे. श्रीरामा स्कीफोल्ड सिस्टम्स, पालकाड	01.11.2003
213.	केआर/केके/17774	मे. जे.आर.एंड कं., चेंदूर, मालापुरम डि	01.05.2003
214.	केआर/टीवीएम/22062	मे. एलेक्ट्रोनेट, केरावदासपुरम, टीवीएम	01.02.2005
215.	केआर/केसी/19973	मे. स्विट्ज कंस्ट्रक्शन कं. लि., कोच्ची	01.07.2004
216.	केआर/केसी/21450	मे. रामकृष्ण सिरमिक्स, त्रिशूर	01.08.2006
217.	केआर/केसी/21455	मे. लॉर्ड्स अकाडमी स्कूल, त्रिशूर	16.08.2006
218.	केआर/केसी/21224	मे. युएई एक्सपोजेंस सेंटर, कोच्ची	01.06.2005
219.	केआर/केके/21144	मे. कैलास फेसिटेडर्स, कोच्ची	01.02.2005
220.	केआर/टीवीएम/22218	मे. एसआरसी सॉफ्टवेयर प्रा. लि., टीवीएम	01.05.2006
221.	केआर/केसी/21248	मे. एस्साइर इंजीनियरिंग, त्रिशूर	01.09.2005
222.	केआर/केसी/21213	मे. प्रवृत्ति पवर, कल्लूर, कोच्ची	02.05.2005
223.	केआर/केसी/21413	मे. सेंटॉर ट्रेवल्स, चेंगनूर	01.03.2006
224.	केआर/केके/23111	मे. हिदया पब्लिक स्कूल, कोयिक्कोड	01.03.2006
225.	एपी/केडीपी/50074	मे. द नंदास सेंट्रल वेर हाउसिंग कॉर्प. हमालीस लेबर कांटाक्ट को.ऑप सोसाइटी लि, नंदास	01.04.2005
226.	एपी/केडीपी/50080	मे. स्टार माइक्रोफिन सर्विस सोसाइटी बेलगोड, कर्नूल जिला	01.06.2006
227.	एपी/आरजेवाई/28456	मे. जी. कोतापल्ली प्राइमरी एग्रीकल्चरल को.ऑप क्रेडिट सोसाइटी लि, जी, कोतापल्ली	01.10.1995
228.	एपी/आरजेवाई/28469	मे. सोशल सर्विस सेंटर, जेदियर नगर, चंद्रूर	01.03.1995
229.	एपी/केडीपी/50023	मे. अनंत पर्यावरण परिष्कार समिति, अनंतपुर	01.03.2006
230.	एपी/केडीपी/50119	मे. केन डेवलपमेंट कार्सिल, बी.एन. कदिरिगा	01.07.2005
231.	एपी/केडीपी/50154	मे. साई मैनेजमेंट सोल्यूशन्स, तिरुपति	01.10.2005
232.	एपी/आरजेवाई/27259	मे. एस आर इंजीनियरिंग असेसिएट्स काकिनाडा	01.05.1995
233.	एपी/आरजेवाई/46679	मे. घटपक सार्ज साइज्ड को.ऑप सोसाइटी लि, घटपक	01.07.2005
234.	एपी/बीएसपी/45762	मे. द एस कोटा को.ऑप स्टोर्स लि, विजयनगरम	01.11.2004
235.	एपी/एचवाई/47742	मे. श्री वेंकटरमणा आयरन एंड हाईवेर मर्चेंट, कोटाकोटा	01.10.2004
236.	एपी/एचवाई/52416	मे. वैन मैकनील प्रेसिशन मैनुफैक्चरिंग प्रा. लि, हैदराबाद	01.12.2005
237.	एपी/एचवाई/51411	मे. इस्माका स्वयंसेवी महिला मंडली, हैदराबाद	16.02.2005
238.	एपी/एचवाई/51007	मे. एयरो सर्विसेस, हैदराबाद	01.02.2005

239.	एपी/एचवाई/50546	मे. नंदी एगो प्रॉडक्ट्स, हैदराबाद	01.02.2005
240.	एपी/एचवाई/47837	मे. युनिट रन कैंटीन नं.1 ईएमई सेंटर सिकंदराबाद	01.10.2004
241.	एपी/एचवाई/52371	मे.अलबानी मॉलेक्युलार रिसर्च हैदराबाद रिसर्च सेंटर प्रा.लि, आर.आर.डिस्ट्रिक्ट	01.11.2005
242.	एपी/केकेपी/46420	मे. वासवी केमिकल कॉर्पोरेशन हैदराबाद	01.03.2005
243.	एपी/केकेपी/46439	मे. शिवन्विता फाइनांशियल सर्विसेस प्रा. हैदराबाद	01.03.2005
244.	एपी/केकेपी/46468	मे. फायर सेफ्टि सेक्युरिटी सर्विसेस, हैदराबाद-73	01.03.2005
245.	एपी/जीएनटी/49034	मे. कॉडपावुलुरु प्राइमरी एग्रीकल्चरल को.ऑप क्रेडिट सोसाइटी, कॉडपावुलुरु	01.03.2006
246.	एपी/जीएनटी/49038	मे. गजवरम मंडलम महात्मा गांधी को. ऑप विल्डिंग सोसाइटी लि, गजवरम	01.03.2006
247.	एपी/जीएनटी/49039	मे.द्र पेद्रवुटापल्ली प्राइमरी एग्रीकल्च रल को.ऑप सोसाइटी लि, पेद्रवुटापल्ली	01.03.2006
248.	एपी/जीएनटी/39911	मे. शिवगंगा प्राइमरी एग्रीकल्चरल को. ऑप क्रेडिट सोसाइटी लि, चित्तगुटपालेम	01.05.2002
249.	एपी/केडीपी/50146	मे. श्री सत्यसाई इंस्टिट्यूट ऑफ हयर मेडिकल सायंसेस वेलफेर सोसाइटी, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट	01.10.2005
250.	एपी/केडीपी/50155	मे. द अनंतपुर सत्यनारायण निधि लि, अनंतपुर	01.10.2005
251.	एपी/वीएसपी/45737	मे. शिडी साई एजुकेशनल सोसाइटी, विजयनगरम	01.03.2005
252.	एपी/आरजेवाई/46760	मे. बोम्बा चित्र वीरन्ना प्राइमरी एग्री- कल्चरल को.ऑप क्रेडिट सोसाइटी लि अलमूरु	01.04.2006
253.	एपी/आरजेवाई/46836	मे. राघवपुरम प्राइमरी एग्रीकल्चरल को. ऑप सोसाइटी, राघवपुरम	01.08.2006
254.	एपी/केआरएम/52521	मे. श्री राजराजेश्वर असोसिएशन ऑफ मेन्स थ्रिफ्ट को.ऑप पोदुपु समिति, पोरंडल, करीमनगर डिस्ट्रिक्ट	01.07.2005
255.	एपी/केआरएम/52525	मे. अरुणोदया चिट्स(आर), वाविलाल- पल्ली, करीमनगर डिस्ट्रिक्ट	01.09.2005
256.	एपी/केआरएम/52531	मे. विश्वभारती महिला पोदुपु समिति, कोत्तपल्ली(वी) करीमनगर डिस्ट्रिक्ट	01.09.2005
257.	एपी/केआरएम/52522	मे. प्रतिभा महिला पोदुपु समिति, करीमनगर डिस्ट्रिक्ट	01.07.2005
258.	एपी/केकेपी/51704	मे. द आदर्श को.ऑप अर्बन बैंक लि, आर.आर.डिस्ट्रिक्ट	01.06.2005

259.	एपी/केकेपी/51654	मे. एक्सपिकॉर कार्मा प्रा.लि, फस्ट फ्लोर, प्लॉट नं.80,81 एपीआईई, बालनगर, हैदराबाद	01.07.2005
260.	एपी/51324	मे.सन सेक्युरिटी सर्विसेस सिकंदराबाद	18.02.2005
261.	एपी/52010	मे. जलिंगा इन्जीनियरिंग के.प्रा. लि, चैलपल्ली, हैदराबाद	01.08.2005
262.	एपी/52036	मे. जनप्रिया मक्केरा एल.सी.सी.एस लि सईदाबाद, हैदराबाद	01.04.2005
263.	एपी/52055	मे. सिद्धार्थ कंसल्टन्स, मीनाली, हैदराबाद	01.07.2005
264.	एपी/52057	मे.श्री बालाजी एंटरप्राइजेस प्रो.सीआईएल हैदराबाद	12.01.2005
265.	एपी/52204	मे. डीलवेल चिटफंड प्रा.लि, विलसुख-नगर, हैदराबाद	09.08.2005
266.	एपी/52210	मे.सन इलेक्ट्रानिक्स, मलकपेट हैदराबाद	01.08.2005
267.	एपी/52442	मे. सेंटर ऑफ प्लांट इंजीनियरिंग सर्विसेस, सिकंदराबाद	01.12.2005
268.	एपी/53041	मे. एक्टुंग सेक्युरिटी सर्विसेस, सैनिक पुरी, सिकंदराबाद	01.02.2006
269.	एपी/53315	मे. सेंटर फॉर ससटेनेबल एग्रीकल्चर, तारनाका, सिकंदराबाद	01.09.2006
270.	एपी/53464	मे. द संगमित्रा को.ऑप अर्बन बैंक लि, नलगोंडा	01.04.2006
271.	एपी/56026	मे. राजोली हैंडलूम यीवर्स को.ऑप.प्रो. एंड सेल्स सोसाइटी लि, राजोली, महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट	01.04.2006
272.	एपी/56095	मे.अंजली लॉजिस्टिक्स(पी) लि, नागोल हैदराबाद	01.07.2006
273.	एपी/53292	मे. समीरा ट्रेवल्स एंड टूरस प्रा.लि, सिकंदराबाद	01.01.2006
274.	एपी/51319	मे. स्वर्णाश्रम सेक्युरिटी सर्विसेस, सैनिक पुरी, सिकंदराबाद	02.03.2005
275.	एपी/51431	मे.क्रिएटिव फ्लेक्सटेक, चैलपल्ली हैदरा.	01.09.2004
276.	एपी/53671	मे.प्राइमरी एग्रीकल्चरल को.ऑप क्रेडिट सोसाइटी लि, आलेर, नलगोंडा जिला	01.08.2006
277.	एपी/53939	मे. प्राइमसॉफ्ट आइ.पी.सोल्युशन्स प्रा. लि, बेगमपेट, हैदराबाद	12.10.2006
278.	एपी/केडीपी/54546	मे. आर्लबंदा प्राइमरी एग्रीकल्चरल को. ऑप क्रेडिट सोसाइटी लि, आर्लबंदा	01.08.2006
279.	केएन/26783	मे. ऑस्टिन मेडिकल सोल्युशन्स(पी) लि, बेंगलूर	01.02.2005
280.	केएन/पीएनवाई/29397	मे. सर्व(आई) प्रा.लि, बेंगलूर	26.09.2002
281.	केएन/पीएनवाई/29657	मे. साई पवर टेक, बेंगलूर	01.04.2004

282.	केएन/41002	मे. गोल्डकॉइन फार्मस एंड ड्रग्सिंग डेवलपर्स लि, बेंगलूर	01.01.2005
283.	केएन/26602	मे. ह्यूमन कैपिटल कंसल्टिंग(प्रा.)लि, बेंगलूर	01.10.2004
284.	केएन/41047	मे. सिनफोरा इंडिया इजी. प्रो. प्रा. लि, बेंगलूर	01.05.2005
285.	केएन/41016	मे. ट्रस्टीन सेमीकंडक्टर टेक प्रा.लि बेंगलूर	01.05.2005
286.	केएन/26662	मे. आईबीपी आर्ट्स सर्विसेस प्रा.लि, बेंगलूर	01.11.2004
287.	केएन/26676	मे. पीवीएसडब्ल्यू सॉफ्टवेयर प्रा.लि (आई) प्रा.लि, बेंगलूर	01.11.2004
288.	केएन/26777	मे. मारुति आर राम, बेंगलूर	01.11.2004
289.	केएन/26659	मे. केन-लीवर्स(आई) प्रा.लि, बेंगलूर	01.12.2004
290.	केएन/26671	मे. मेटर ग्राफिक्स(सेल्स एंड सर्विसेस) प्रा. लि, बेंगलूर	01.10.2004
291.	केएन/26653	मे. बोस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रा.लि, बेंगलूर	01.05.2004
292.	केएन/26935	मे. पवर पीपल, बेंगलूर	01.04.2005
293.	केएन/26656	मे. ए.एस.पी. कंसल्टिंग प्रा.लि, बेंगलूर	01.11.2004
294.	केएन/41116	मे. ऑब्जेक्ट टेक्नोलॉजी प्रा.लि, बेंगलूर	01.07.2005
295.	केएन/26779	मे. केमिकल्स एंड असायिन्स प्रा.लि, बेंगलूर	01.12.2004
296.	केएन/44010	मे. त्रिशूल सेड्युरिटी सर्विसेस प्रा.लि, बेंगलूर	01.04.2005
297.	केएन/41080	मे. पिक्सेल सॉफ्टवेयर प्रा.लि, बेंगलूर	01.07.2005
298.	केएन/41083	मे. स्वर्ण भारती सहकार बैंक प्रा.लि, बेंगलूर	01.07.2005
299.	केएन/41051	मे.प्राइमावेरा प्रोजेक्ट्स-एंड-कंसल्टिंग प्रा.लि, बेंगलूर	01.06.2005
300.	केएन/41074	मे. ऐवॉच ऐंशन एंड पैरोल सर्विसेस(प्रा.) लि, बेंगलूर	01.06.2005
301.	केएन/26723	मे.प्रभुधन कर्ता डेवलपर्स प्रा.लि, बेंगलूर	01.11.2004
302.	केएन/26649	मे. ट्रेवटेक सॉफ्टवेयर प्रा.लि, बेंगलूर	01.11.2004
303.	केएन/41117	मे.गैस्को साउथ रिशाल्ट प्रा.लि, बेंगलूर	01.05.2005
304.	केएन/25815	मे. नेटवर्क अप्लाइडस लि(एमएस) प्रा. लि, बेंगलूर	01.12.2002
305.	केएन/29335	मे. मैग्नेटिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बेंगलूर	01.11.2002
306.	केएन/38191	मे. कुंतूर पडाव मिल्क प्रोड्यूसर्स को. ऑप सोसाइटी लि, पुनूर	01.01.2005
307.	केएन/38222	मे. विक्रम प्रिंट एन पैक, बेंगलूर	01.02.2005
308.	केएन/38215	मे. विक्रम प्रिंटिंग इन्स, बेंगलूर	01.02.2005
309.	केएन/38001	मे. श्री चीरुबा क्रेडिट को.ऑप सोसाइटी लि, मंगलूर	01.09.2003
310.	केएन/38207	मे. ग्लोरिया क्रेडिट को.ऑप सोसाइटी लि, मंगलूर	01.01.2005

311.	केएन/28298	मे. कुरुतगी पट्टण सहकार बैंक लि, कुरुतगी	01.04.2005
312.	केएन/41349	मे. मोटाल्को कंप्यूटर सिस्टम्स इंडिया लि, बेंगलूर	01.12.2005
313.	केएन/41330	मे. डिजिटल मैनेजमेंट कंसल्टिंग प्रा.लि, बेंगलूर	01.11.2005
314.	केएन/26795	मे. एस.के. फेब्रिकेटर्स, बेंगलूर	01.02.2005
315.	केएन/26959	मे. श्रीनगर क्रेडिट को.ऑप सोसाइटी बेंगलूर	01.05.2005
316.	केएन/26965	मे. ग्रीनफील्ड नेटवर्क्स टेक्नोलॉजीस प्रा.लि, बेंगलूर	30.04.2005
317.	केएन/26724	मे. प्राइम कंस्ट्रक्शन कंपनी, बेंगलूर	01.01.2005
318.	केएन/26639	मे. हिटाची डाटा सिस्टम्स इंडिया प्रा. लि, बेंगलूर	01.08.2004
319.	केएन/41013	मे. सायराट्रान सेल्स, बेंगलूर	01.04.2005
320.	केएन/26369	मे. श्री एंटरप्राइजेस, बेंगलूर	01.02.2005
321.	केएन/41259	मे. गेनेक्स इंडिया मार्केटिंग प्रा.लि, बेंगलूर	01.08.2005
322.	केएन/41154	मे. एम.एम.सी. मेटल सिगापुर प्रा.लि, बेंगलूर	01.08.2005
323.	केएन/26728	मे. श्री कंस्ट्रक्शंस, बेंगलूर	01.12.2004
324.	केएन/41257	मे. मार्क्स एंड स्पेंसर(इंडिया)लि, बेंगलूर	01.10.2005
325.	केएन/41311	मे. इटिग्रल पर्सनल मैनेजमेंट कंसल्टंट्स बेंगलूर	01.11.2005
326.	केएन/41103	मे. मार्क्स एंड स्पेंसर साउथ एशिया लायजन्स ऑफिस, बेंगलूर	01.07.2005
327.	केएन/41559	मे. श्रीधर इलेक्ट्रिकल वर्क्स, बेंगलूर	01.04.2006
328.	केएन/41252	मे. पूर्णिमा ट्रेवल्स, बेंगलूर	01.09.2005
329.	केएन/41063	मे. कर्नाटक रीजनल चैप्टर इन्स्टिट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया, बेंगलूर	01.04.2005
330.	केएन/41118	मे. सायबर मीडिया डाइजिटल कैरियर्स लि, बेंगलूर	01.05.2005
331.	केएन/41050	मे. स्पाइरैड कम्युनिकेशंस(इंडिया) प्रा.लि, बेंगलूर	01.05.2005
332.	केएन/41297	मे. डी कंट्रोल्स, बेंगलूर	01.11.2005
333.	केएन/41208	मे. ई2ई बिजनेस सोल्युशंस प्रा.लि, बेंगलूर	01.09.2005
334.	केएन/41291	मे. मार्केटिंग सोल्युशंस एंड सर्विसेस प्रा. लि, बेंगलूर	31.10.2005
335.	केएन/41195	मे. हैम्पसन मैनी इंजी. प्रा.लि, बेंगलूर	01.09.2005
336.	केएन/41391	मे. प्रिफिथ लेबोरेटरीस प्रा.लि, बेंगलूर	01.11.2005
337.	केएन/41401	मे. जी एस जी इलेक्ट्रॉनिक्स, बेंगलूर	01.12.2005
338.	केएन/41206	मे. श्री जयचामराज क्रेडिट को.ऑप सोसाइटी लि, बेंगलूर	01.09.2005
339.	केएन/26453	मे. कॉफी लेक्फी लि, बेंगलूर	01.07.2004
340.	केएन/26948	मे. डेंटसु कम्युनिकेशंस प्रा.लि, बेंगलूर	01.04.2005

341.	केएन/41249	मे. दिव्यज्योति क्रेडिट को.ऑप सोसाइटी लि, बेंगलूर	01.10.2005
342.	केएन/29833	मे. ए.के.इजीनियर्स, बेंगलूर	22.12.2004
343.	केएन/29773	मे. केनरा फोर्कलिफ्ट सर्विसेस, बेंगलूर	01.09.2004
344.	केएन/29347	मे. एन आर इंडस्ट्री, बेंगलूर	01.09.2002
345.	केएन/41285	मे. ओजेओस इंटरनेट टेक्नोलॉजीस प्रा.	01.10.2005
346.	केएन/41284	मे. ज़ीरो 260 मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा.लि, बेंगलूर	01.10.2005
347.	केएन/26679	मे. मंजुला एंटरप्राइजेस, बेंगलूर	01.11.2004
348.	केएन/26678	मे. चंद्रा इलेक्ट्रिकल्स एंड रीवाइंडर्स, देवनहल्ली	01.10.2004
349.	केएन/26483	मे. एम पी केर एंड क्लीन सर्विसेस, बेंगलूर	01.07.2004
350.	केएन/29293	मे. सृष्टि स्पेशल अकाडमी, बेंगलूर	01.06.2002
351.	केएन/29421	मे. जे एल इजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, बेंगलूर	01.01.2003
352.	केएन/38108	मे. हैकलेडी मिल्क प्रोड्यूसर्स को.ऑप सोसाइटी लि, कुंदापुरा तालुक	01.06.2004
353.	केएन/27256	मे. वीरमहेश्वर क्रेडिट को.ऑप सोसाइटी लि, देवनगेरे	01.12.2002
354.	केएन/36361	मे. श्री महेश्वर एंटरप्राइजेस, मैसूर	01.11.2004
355.	केएन/37132	मे.पीएसीसी बैंक, घट्टदहल्ली, बेलूर ता.	01.12.2004
356.	केएन/37146	मे. हसन डिस्ट्रिक्ट केपीटीसीएल एम्प्लॉईस क्रेडिट को.ऑप सोसाइटी लि, हसन	01.11.2004
357.	केएन/36488	मे. नं.481, को.ऑप महिला समाज, पोन्नम पेट, कूर्ग	01.04.2005
358.	केएन/36504	मे. नं.2802 पोन्नमपेट वीएसएस बैंक लि, पोन्नमपेट	01.07.2005
359.	केएन/36496	मे.द आटो ट्रेडिंग असोसिएशन, मडिकेरी	01.05.2005
360.	केएन/36295	मे. एमसीसी एंड एमयुडीए ऑफिसेस एंड एम्प्लॉईस को.ऑप सोसाइटी लि, मैसूर	01.06.2004
361.	केएन/36308	मे. शिम्शा सहकार बैंक नियमिता, मद्रूर	01.07.2004
362.	केएन/36517	मे. उमामहेश्वरी टिबर्स, गोनिकोप्पल	11.08.2005
363.	केएन/36530	मे. नं.2799 अतिथि मति व्यवसाय सेवा सहकार बैंक नियमिता, तिटिमति-254	01.09.2005
364.	केएन/36006	मे.हेम्मेगे एमपीसीएस लि, हेम्मेगे, मांड्या ता.	01.04.2003
365.	केएन/36278	मे. मांड्या डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट को.ऑप सोसाइटी लि, मांड्या	01.05.2004
366.	केएन/25747	मे. सिमरन ट्रैवल्स प्रा. लि.	01.01.2003
367.	केएन/41375	मे. एस एल सोर्सिंग प्रा लि., बेंगलूर	01.12.2005
368.	केएन/41857	मे.द मिलेनियम क्रेडिट को.ऑप सोसाइटी	01.10.2006
369.	केएन/45196	मे. एन्वियो नेटवर्क्स इंडिया प्रा.लि, बेंगलूर	01.10.2006
370.	केएन/41863	मे. बैटमैन प्रोजेक्ट्स(आई) प्रा.लि, बेंगलूर	01.09.2006
371.	केएन/41783	मे. कार्तिक इलेक्ट्रिकल, बेंगलूर	01.08.2006

372.	केएन/45190	मे. अलाईड बल्डवाइड बिजनेस सोल्युशंस प्रा. लि, बेंगलूर	01.10.2006
373.	केएन/36309	मे. प्राइमरी एग्रिकल्चरल क्रेडिट को.ऑप बैंक लि, चामराजनगर	01.07.2004
374.	केएन/36588	मे. श्री राजेश्वरी विद्यानिकेतन हाई स्कूल, देवरापुरा	01.03.2006
375.	केएन/36516	मे. विश्वाज्ञा क्रेडिट को.ऑप सोसाइटी लि मैसूर	01.07.2005
376.	केएन/36301	मे. द चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट को.ऑप युनियन लि, चामराजनगर	01.07.2004
377.	केएन/36307	मे. सेरकुल ट्राइब लार्ज साइज्ड मल्टि परपज को.ऑप सोसाइटी लि, गुंडुलपेट	01.07.2004
378.	केएन/36374	मे. तम्मेडहल्ली मिल्क प्रोड्यूसर्स को. ऑप सोसाइटी लि, चामराजनगर	01.12.2004
379.	केएन/36375	मे. उत्तमहल्ली मिल्क प्रोड्यूसर्स को. ऑप सोसाइटी लि, चामराजनगर	01.12.2004
380.	केएन/41640	मे. सुप्रजा सीदार्ड क्रेडिट को.ऑप लि, बेंगलूर	01.05.2006
381.	केएन/45169	मे. जपान सीबीएम कॉर्पोरेशन(आई) प्रा. लि, बेंगलूर	01.07.2006
382.	केएन/41472	मे. आकास ट्रांसमिर्सस प्रा.लि, बेंगलूर	01.02.2006
383.	केएन/41316	मे. अंजना ट्रांसपोर्ट, बेंगलूर	01.11.2005
384.	केएन/41841	मे. व्युहा सॉफ्टवेयर सोल्युशंस प्रा.लि, बेंगलूर	01.09.2006
385.	केएन/41448	मे. सी.कृष्णय्या चेट्टी एंड सन्स, बेंगलूर	01.12.2005
386.	केएन/38363	मे. लॉजिक्स वर्क सॉफ्टवेयर सर्विसेस प्रा. लि, मंगलूर	05.01.2006
387.	केएन/45178	मे. प्लेक्सस माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स(पी) लि, बेंगलूर	01.08.2006
388.	केएन/41800	मे. बैटमैन इंजीनियरिंग(आई) प्रा.लि, बेंगलूर	01.09.2006
389.	केएन/35901	मे. मिलेनियम पॉलिमर्स प्रा.लि, होन्नकोट	01.08.2005
390.	केएन/एमवाईएस/36714	मे. विराजपेट पट्टण सहकार बैंक नियमित विराजपेट	01.09.2006
391.	केएन/एमवाईएस/36727	मे. पोन्नमपेट टाउन को.ऑप बैंक(एन) पोन्नमपेट	01.11.2006
392.	केएन/एमवाईएस/36705	मे. नं.2757, अभ्युत्तमंगल वी.एस.एस. बैंक लि, नेल्लिआहुदिकेरी, कोडगु	01.09.2006
393.	केएन/एमवाईएस/36719	मे. बायो-केम डायग्नोस्टिक लेब, मैसूर	01.10.2006
394.	केएन/एमवाईएस/36720	मे. बायो-केम डायग्नोस्टिक एंड रीसर्च लेब, मैसूर	01.10.2006
395.	केएन/बीएनजी/41852	मे. एस.जी.एस इंजीनियरिंग वर्क्स, बेंगलूर	01.09.2006
396.	केएन/एमएनजी/38435	मे. आटोमेशन इंफो सोल्युशंस, मंगलूर	01.10.2006

397.	केएन/एमवाईएस/36359	मे. मिल्क प्रोड्यूसर्स को ऑप सोसाइटी लि चामराजनगर	01.11.2004
398.	केएन/एमवाईएस/36480	मे. शेड्युल्ड ट्राइब लार्ज साइड मल्टि परपज को.ऑप सोसाइटी लि चामराजनगर	01.05.2005
399.	केएन/एमएनजी/15376	मे. मुद्देबिहाल तालुक एग्रिकल्चरल प्रोड्यूस को.ऑप मार्केटिंग सोसाइटी लि मुद्देबिहाल	01.08.1992
400.	केएन/बीएनजी/41658	मे. एसीएमए ट्रेवल टूर्स प्रा. लि. बेंगलूर	01.06.2006
401.	केएन/बीएनजी/41793	मे. थॉमस व्हाइट इंडिया प्रा. लि. बेंगलूर	01.07.2006
402.	केएन/बीएनजी/41850	मे. अरुबा वायरलेस नेटवर्क इंडिया प्रा लि, बेंगलूर	01.09.2008
403.	केएन/बीएनजी/41894	मे. देवास मल्टिमीडिया प्रा. लि. बेंगलूर	01.10.2006
404.	केएन/बीएनजी/41775	मे. पाटिल्स अल्फा एयर ट्रेडिंग बेंगलूर	01.09.2006
405.	केएन/बीएनजी/41871	मे. कावासाकी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इंक. इंडिया ब्रांच, बेंगलूर	01.10.2006
406.	केएन/एमएनजी/38412	मे. सिकल अग्रेजिवस, उडुपी	01.07.2006
407.	केएन/एमवाईएस/36272	मे. उम्मतुर मिल्क प्रोड्यूसर्स को.ऑप सोसाइटी लि, उम्मतूर	01.06.2004
408.	केएन/एमएनजी/38419	मे. केडिला सेवा सहकारी बैंक लि	01.08.2006
409.	केएन/एमवाईएस/36352	मे. प्राइमरी एग्रिकल्चरल क्रेडिट को. ऑप बैंक लि, चामराजनगर	01.10.2004

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम के उपबंधों का ऊपर उल्लिखित स्थापनाओं को प्रत्येक स्थापना के नाम के प्रति उल्लिखित तारीख से लागू करते हैं।

यू. सी. तिवारी
अपर केन्द्रीय भ. नि. आयुक्त (द. अं)

RESERVE BANK OF INDIA

Mumbai-400005, the 2nd August 2007

DBOD. No. PSBD. 1174/16.01.12/2007-08—In pursuance of clause (c) of sub-section (6) of section 42 of Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs that the following alterations shall be made with effect from July 30, 2007 in the Second Schedule to the said Act namely:—

For the words 'UTI BANK LIMITED' the words 'AXIS BANK LIMITED' shall be substituted.

ANAND SINHA
Executive Director

STATE BANK OF INDIA

Mumbai, the 15th July 2007

SBD. No. 05/2007-08—In pursuance of Section 29(1) of State Bank of India (Subsidiary Banks) Act 1959, the State Bank of India, after consulting the Board of Directors of State Bank of Hyderabad and with the approval of the Reserve Bank of India, have appointed Shri Amitabha Guha as Managing Director of State Bank of Hyderabad for a further period from 22/5/2007 to 21/5/2008 (both days inclusive).

O. P. BHATT
Chairman

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

(MINISTRY OF LABOUR, GOVT. OF INDIA)

ZONAL OFFICE, SOUTH ZONE

ANDHRA PRADESH, the 26th July 2007

No. EPFO/ACC/SZ/GL-240A/Notifn. of 1(4)/2007/583—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provision of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely:

Sl. No.	Code No.	Name of the Establishment	Date of Coverage & Consent
1	2	3	4
1	TN/AMB/65719	M/s Kery Drying & Conveying System Pvt Ltd, Chennai	01.03.2005
2	TN/CMB/72195	M/s Chakara Electro Stamping, Coimbatore	01.04.2005
3	TN/AMB/65664		01.06.2004
4	TN/AMB/65668	M/s Hari Kumar Enterprises, Chennai	01.01.2005
5	KN/BNG/41057	M/s Nisiki Technologies Pvt Ltd, Bangalore	01.05.2005
6	KN/BNG/26964		01.04.2005
7	KN/26655	M/s Telentix Pvt Ltd	01.12.2004
8	KN/Bng/26426	M/s Shelk Software Pvt Ltd, Bangalore	01.06.2004
9	KN/26854	M/s Veveety India Pvt Ltd	01.02.2005
10	KR/KNR/18319	M/s C.R.Mills, Kannur	01.05.2005
11	KR/KNR/18320	M/s Rajeev Mills, Kannur	01.05.2005
12	KR/21200	M/s Geekay Pneumatics, Kochin	01.04.2005
13	KR/KNR/18315	M/s Nishanth Travels, Kannur	01.04.2005
14	KR/KNR/18331	M/s K.D.wholesale Co-op. Consumers Stores Ltd, Kannur	01.07.2005
15	KR/KNR/18322	M/s Krishnadaval Motors, Kannur	01.06.2005
16	KR/KNR/18324	M/s New Doha Travels, Kannur	01.06.2005
17	KR/KNR/18323	M/s Harisree Motor Service, Kannur	01.06.2005

1	2	3	4
18	KR/19696	M/s Thalappilly Taluk Co-op. College Educational Society, Kochi	01.01.2004
19	KR/KC/21174	M/s Maria Agencies, Kochi	01.10.2004
20	KR/KC/21187	M/s Ram Steels, Kochi	01.04.2005
21	KR/KC/21231	M/s Sun Ceramics, Kochi	01.06.2005
22	KR/KC/21186	M/s Devi Engineers, Kochi	01.04.2005
23	KR/KC/19924	M/s Divinay Vidyaqur Publishing Ltd, Kochi	01.04.2004
24	KR/KC/21088	M/s Pilots India, Kochi	01.02.2005
25	KR/KC/21161	M/s The River Retreat, Kochi	01.03.2005
26	TN/50601	M/s Trust 1 Consultancy Ltd	01.12.2003
27	TN/50860	M/s Tamil Nadu Industries Guidance Export Promotion Bureau, Chennai	01.10.2003
28	TN/PC/689	M/s Telefax Medical(P) Ltd, Pondicherry	01.05.1997
29	TN/PC/1264	M/s Pudhumai Pondicherry Pudhumai Handicrafts Artisan Co-op. Society Ltd	01.03.2002
30	TN/PC/1384	M/s Meena Polymers, R.S.No.63/3, Pondicherry	01.01.2003
31	TN/PC/1403	M/s Pondicherry Poles & Fabricators	01.12.2004
32	TN/PC/1383	M/s Meena Fibre Glass Industries, Pondicherry	01.01.2003
33	TN/PC/1385	M/s Prem Engg. Concern, Karaikkal	01.02.2003
34	TN/CHN/65248	M/s Thiruvallur Dist. Co-op. Printing Works Ltd	01.04.2003
35	TN/65154	M/s Sri Amman Electricals, Chennai	01.03.2003
36	TN/CHN/65199	M/s S.J.J. Enterprises, Sriperumbudur	18.02.2003
37	TN/CHN/65153	M/s Dewborn Chemicals (Mfg.) Pvt Ltd, Chennai	01.01.2003
38	TN/CHN/65281	M/s Jothy House Keeping Service, Chennai	01.01.2003
39	TN/CHN/65180	M/s West Annanagar Milk Consumers Co-op. Shop	01.04.2002
40	TN/CHN/65414	M/s Richards & John Wesley Engg. Chennai	05.10.2003
41	TN/CHN/65631	M/s Indian Evangelical Education Trust	01.08.2003
42	TN/65645	M/s Seven Glucon India Pvt Ltd, Chennai	01.12.2004
43	TN/65338	M/s Puggazh Chemical Plant & Equipments Pvt Ltd, Chennai	01.04.2003
44	TN/65323	M/s JRK Hitech Office Designs Pvt Ltd, Chennai	01.04.2003
45	TN/65270	M/s Prathit Erection Maintenance Service, Chennai	01.01.2003
46	TN/65427	M/s V.K. Industries, Ambattur, Chennai	01.12.2003
47	TN/65416	M/s Sanmina - SCI India (P) Ltd, Chennai	01.10.2003
48	TN/51340	M/s Argonaut Logistics Pvt Ltd, Chennai	01.05.2005
49	TN/65762	M/s Chennai Hydraulic & Eng. Co. Chennai	01.05.2005
50	TN/65458	M/s Bharat Pressings Thiruvallur, Chennai	01.02.2004
51	TN/65364	M/s India Vepro Informatics Pvt Ltd, Chennai	01.05.2003
52	TN/65336	M/s Shakthi Enterprises, Tiruvallur, Chennai	02.05.2003
53	TN/65196	M/s Yulow Engg. Pvt. Ltd, Chennai	01.04.2002
54	TN/65165	M/s Leanga Security Services, Chennai	01.06.2001
55	TN/65695	M/s Endura Superabs Pvt Ltd, Chennai	01.03.2005
56	TN/65708	M/s Endoplus Orthopedics India Pvt Ltd	01.10.2004
57	TN/65676	M/s Vijay Décor G.K.M.Colony, Chennai	01.01.2005
58	TN/65361	M/s Globe Suhaini India Pvt Ltd, Chennai	01.06.2003
59	TN/65265	M/s Precision Control Products, Chennai	01.12.2002
60	TN/65317	M/ P.P.K. Enterprises, Ambattur, Chennai	01.04.2003
61	KR/KC/21060	M/s Anna Ceramics, Kochi, Thrissur (Dt.)	01.01.2005
62	KR/KC/13552	M/s Hotel Vanamala Kusumam, Kochi	01.01.1992
63	KR/KC/13474	M/s Kwaliti Polymers (Lakshmi Agencies), Kochi	01.11.1990
64	KR/KC/13473	M/s Kwaliti Plastic Industries, Kochi	01.11.1990
65	KR/19981	M/s KiteX Institute of Fashion Technology, Kochi	01.08.2004
66	KR/KK/23010	M/s Kairali Sales Corp., Kozhikode	01.04.2005

1	2	3	4
67	KR/21188	M/s Kerala State Institute of Virology & Infections Diseases, Kochi	01.04.2005
68	KR/KK/14701	M/s Trinity Public School, Kozhikode	01.01.1997
69	TN/AMB/ 65854	M/S Kausalva Enterprises	01.07.2005
70	TN/AMB/65855	M/s Harno's Alloy Foundry	01.09.2005
71	TN/AMB/65857	M/s VRDS Consultants	01.11.2005
72	TN/AMB/65880	M/s Simhaas Logistics Pvt. Ltd.	01.08.2005
73	TN/AMB/65928	M/s Lizman Engineering	01.02.2006
74	TN/AMB/65859	M/s Hi Tech Engineers	01.11.2005
75	TN/AMB/65909	M/s NETZSCH Technologies India Pvt. Ltd.	01.10.2005
76	TN/51666	M/s Derby Clothing	01.12.2005
77	TN/TI/55550	M/s Thirupathi Gas Service	01.04.2005
78	TN/TI/55561	M/s Kumari Matriculation School	05.04.2005
79	TN/SLM/47846	M/s The Titan School	01.09.2004
80	TN/MD/57604	M/s Gen Service & Controls	01.01.2006
81	TN/51714	M/s Newlines Business India Ltd.	01.01.2006
82	TN/38959	M/s K.V.K. Screen Printing Fashion Jewellery Unit Society, Vellore	01.12.2004
83	TN/38939	M/s Vandavasi Electricity Board Employees' Co-op. Thrift and Credit Society	01.12.2004
84	TN/38932	M/s Kondakuppam Milk Producers Co-op. Society	06.07.2004
85	TN/55628	M/s Pon Siva Enterprises, Tuticorin	01.08.2005
86	TN/55326	M/s Srivaikuntam Taluk Co-op. Housing Society Ltd., Srivaikuntam	14.12.2004
87	TN/55257	M/s Narayanan Wood Works, Tuticorin	02.08.2004
88	TN/65418	M/s M.M. Security Service, Chennai	01.10.2003
89	TN/65785	M/s Sri Santhana Srinivasa Perumal Agency, Chennai	01.06.2005
90	TN/65263	M/s Mars Construction, Thiruninravur	01.11.2002
91	PC/1368	M/s Simha Textiles & Enterprises (P) Ltd., Pondy	01.08.2004
92	PC/1256	M/s Appasamy Medical Equipments (P) Ltd., Pondy	01.12.2002
93	PC/1273	M/s Eco Care India Ltd., Pondy	01.12.2002
94	PC/1442	M/s Youth Hostel, Pondy	01.07.2005
95	TN/44538	M/s Andheri Trust-India, Trichy	01.05.2005
96	TN/74033	M/s Vandavasi P.V. Emp. Tea's & Aided School Teacher's Co-op. Thrift & Credit Society, Vandavasi	01.08.2005
97	TN/44529	M/s Fathima Hospital, Perambalur	01.04.2005
98	TN/57525	M/s AGS Automobiles, Madurai	01.08.2005
99	TN/57273	M/s A. 2996, Othakadal P.A.C. Bank, Madurai	01.12.2004
100	TN/51770	M/s Hotcourses India Pvt. Ltd., Chennai	01.02.2006
101	TN/57177	M/s Sree Alagar Indane Agency, Madurai	01.11.2004
102	TN/72750	M/s Salzer Information Services Pvt. Ltd., Coimbatore	01.06.2006
103	TN/72333	M/s Otho Technik India Pvt. Ltd., Coimbatore	01.07.2005
104	TN/72631	M/s Namo Industries Pvt. Ltd., Coimbatore	01.02.2006
105	TN/70080	M/s Namakkal Co. Op. Urban Bank Ltd., Namakkal	01.01.2005
106	TN/57530	M/s Philom Process, Sivakasi	01.08.2005
107	TI/55043	M/s C.S.I. Kanyakumari Diocese, Nagercoil	01.01.2003
108	TN/VL/74153	M/s Arulmigu Vaikunta Perumal Thirukkovi, Kanchipuram	01.05.2006
109	TN/VL/74116	M/s Arulmigu Lakshmi Narasimha Swamy Thirukkovi, Sholinghur	01.03.2006

1	2	3	4
110	TN/VL/74123	M/s Arulmigu Subramania Swamy Thirukkivil, Kanchipuram	01.03.2006
111	TN/VL/74129	M/s Arulmigu Dakshinamurthy Swamy Thirukkivil, Govindawadi	01.03.2006
112	TN/VL/74118	M/s Arulmigu Kamalavinayagar Thirukovil, Sholinghur	01.03.2006
113	TN/VL/74121	M/s Arulmigu Kadambanadha Swamy Thirukovil, Uttiramerur	01.03.2006
114	TN/VL/74139	M/s Arulmigu Agatheeswarar Thirukkivil, Siruvellore	01.03.2006
115	TN/51594	M/s Unit Run Canteen (CSD), Chennai	01.10.2005
116	TN/51566	M/s OSG India Pvt Ltd, Chennai	01.10.2005
117	TN/51595	M/s I Mantras (India) Pvt Ltd, Chennai	01.10.2005
118	TN/AMB/65962	M/s Arulmigu Padavattamman Temple, Padi, Chennai	01.03.2006
119	TN/AMB/65995	M/s Arulmigu Sengalamman Temple, Sembulivaram	01.03.2006
120	TN/AMB/66014	M/s Arulmigu Devi Periya Payathamman Thirukovil, Chennai	01.03.2006
121	TN/AMB/66012	M/s Arulmigu Pidari Mangaliamman and Siddhi Vinayagar Temple, Anna Nagar, Chennai	01.03.2006
122	TN/AMB/66013	M/s Arulmigu Makallamman Thirukoil, Anna Nagar, Chennai	01.03.2006
123	TN/AMB/65963	M/s Arulmigu Subramanyaswamy Thirukkoil, Vallakkottai Vil.	01.03.2006
124	TN/MD/57478	M/s Moorthy Enterprises, Sivakasi	01.06.2005
125	TN/MD/57507	M/s Energe Capacitors Pvt Ltd, Rajapalayam	01.07.2005
126	TN/MD/42480	M/s Sp. Spl.62, Amanakkunatham PACB, Amanakkunatham	01.03.2004
127	TN/MD/57639	M/s Diesel Power System, Madurai	01.02.2006
128	TN/MD/57474	M/s Sivan Fabricators, Madurai	01.06.2005
129	TN/SLM/70135	M/s Siddharth Village School, Hosur	01.11.2004
130	TN/66025	M/s Sun & Jay Engineering Consultants (P) Ltd., Chennai	01.11.2005
131	TN/66027	M/s Mobis India Ltd., Sriperumbudur	01.04.2006
132	TN/66019	M/s Arulmigu Pidari Lakshmi Amman Vagaiyara Thirukoil, Chennai	01.03.2006
133	TN/66028	M/s Gorantla Farm Pvt.Ltd., Chennai	01.12.2005
134	TN/66015	M/s Arulmigu Devi Thirumaniamman Temple, Chennai	01.03.2006
135	TN/MD/57746	M/s D.R.Tech, Dindigul	01.06.2006
136	TN/MD/57642	M/s Arulmigu Kalahetheswarasamy Thirukoil, Dindigul	01.03.2006
137	TN/MD/57751	M/s Eswari Engr. Consultancy, Madurai	01.06.2006
138	TN/MDU/57573	M/s Hotel Padmam, Madurai	01.11.2005
139	TN/TAM/61018	M/s Institute for Information Industry	01.06.2006
140	TN/MD/57628	M/s Arulmigu Koodalagar Thirukoil Madurai Town, Madurai	01.03.2006
141	TN/MD/57624	M/s Arulmigu Gowmariamman Thirukoil, Veerapandi	01.03.2006
142	TN/MD/57630	M/s Arulmigu Kanneswara Mudaiyar Thirukoil, Veerapandi	01.03.2006
143	TN/MD/57647	M/s Arulmigu Janagai Mariamman Thirukoil, Sholavandan	01.03.2006
144	TN/MD/57648	M/s Arulmigu Edaganathasamy Thirukoil, Thiruvedagam	01.03.2006

1	2	3	4
145	TN/MD/57649	M/s Arulmigu Peralayanathaswamy Thirukoil, 'ADbarmam	01.03.2006
146	TN/MD/57650	M/s Arulmigu Janaganarayanaperumal Thirukoil, Sholavandan	01.03.2006
147	TN/MD/57619	M/s Arulmigu Mathana Gonsamy Thirukoil, Madurai	01.03.2006
148	TN/MD/57612	M/s Arulmigu Dhandayuthapani Samy Temple, Madurai	01.02.2006
149	TN/MD/57625	M/s Arulmigu Sree Kallamman Thirukoil, Battagoundu	01.03.2006
150	TN/MD/57613	M/s Arulmigu Natarajar Thirukoil, Nilakottai Town	01.03.2006
151	TN/MD/57655	M/s Arulmigu Subramaniasamy Thirukoil, Thirunarankundram, Madurai	01.03.2006
152	TN/MD/57677	M/s Shivan Air System, SIDCO, Kannalur, Madurai	01.03.2006
153	TN/CBE/56622	M/s Evershine Wire Products Pvt. Ltd., Coimbatore	01.10.2003
154	TN/50820	M/s Crown Solutions India (P) Ltd, Chennai	01.09.2004
155	TN/MD/57668	M/s Arulmigu Sri Sarvaswaran Temple, Madurai	01.03.2006
156	TN/MD/57760	M/s Peoples Action for Development, Madurai	01.07.2006
157	TN/MD/57722	M/s Resource Centre for Participatory Development Studies, Madurai	01.05.2006
158	TN/MD/57721	M/s SPEECH (Society for People Education and Economic Change), Madurai	01.05.2006
159	TN/MD/57659	M/s Arulmigu Kallalagar Thirukovil, Alagarkovil, Madurai	01.03.2006
160	TN/50618	M/s Palm C.S.D. Cartoon, Chennai	01.01.2004
161	TN/AMB/66020	M/s Arulmigu Sundararaja Perumal Thirukoil, Chennai	01.03.2006
162	TN/AMB/65948	M/s Arulmigu Devi Karumarlamman, Thirukoil, Chennai	01.03.2006
163	TN/AMB/65993	M/s Arulmigu Agatheswara Swamy Temple, Villivakkam, Chennai	01.03.2006
164	TN/AMB/66038	M/s Arulmigu Adhikesava Perumal Bashyakara Swamy Temple, Sriperumbudur	01.03.2006
165	TN/AMB/66002	M/s Sri Veeraraghava Swamy Devasthanam, Tiruvallur	01.03.2006
166	TN/AMB/66005	M/s Arulmigu Bhakthavatsala Perumal Temple, Thirunindravur, Tiruvallur	01.03.2006
167	TN/AMB/66021	M/s Arulmigu Somasathaswamy Thirukoil, Chennai	01.03.2006
168	TN/AMB/66057	M/s Nature'shine Herbs Pvt. Ltd, Ambattur, Chennai	01.02.2006
169	TN/AMB/66092	M/s Arulmigu Balasubramaniya Swamy Temple, Ponneri	01.03.2006
170	TN/AMB/66045	M/s Arulmigu Thirukkachi Nambigal and Varadareja Perumal Temple, Chennai	01.03.2006
171	TN/CBE/72870	M/s R. Natarajan & Sons, Coimbatore	01.10.2006
172	TN/MD/57589	M/s Centre for Promotion of Social Concerns, Madurai	01.01.2006
173	TN/MD/57653	M/s Arulmigu Marikamman Thirukovil, Indranthudi	01.03.2006
174	TN/MD/57615	M/s M.D.(Spl) 199 Bodinayakanur Co-op. Housing Society Ltd, Bodinayakanur	01.02.2006
175	TN/MDU/57669	M/s Arulmigu Soundararaja Perumal Thirukoil	01.03.2006
176	TN/MDU/57537	M/s Sri Kottai Marikamman Devasthanam, Dindigul	01.03.2006
177	TN/MDU/57129	M/s MD6 Dindigul Circle Cooperative Employees Co-op. Thrift & Credit Society Ltd, Dindigul	01.09.2004
178	TN/MDU/57132	M/s Dindigul District Police Employees Co-op. Thrift & Credit Society Ltd, Dindigul	01.09.2004
179	TN/MDU/57667	M/s S.R. Steel Industries, Dindigul	01.02.2006

1	2	3	4
180	TN/MDU/57708	M/s Arulmigu Sengunthar Kallamman Thirukoil, Dindigul	01.04.2006
181	TN/MDU/57595	M/s Venkateswara Enterprises, Sivakasi	01.12.2005
182	TN/MDU/57681	M/s SP.Spl.48, S.Thiruvengitapuram Primary Agricultural Co-op. Bank, Rajanalavam	01.03.2006
183	TN/MDU/57620	M/s Arulmigu Gopinathaswamy Thirukoil	01.03.2006
184	TN/MDU/57626	M/s Arulmigu Moolanthesamy Thirukoil	01.03.2006
185	TN/MDU/57621	M/s Arulmigu Kalamega Perumal Thirukovil	01.03.2006
186	TN/SLM/70289	M/s Shree Sakthie Electrical & Engineering Works, Salem	01.11.2005
187	TN/VLR/74019	M/s Annai Teresa Tailoring Embroidery Society, K.V.Kuppam	01.05.2005
188	TN/VLR/74037	M/s Aravatla Women Milk Producers' Co-op. Society, Aravatla	01.04.2005
189	TN/TI/55625	M/s Santhan Agencies, Tuticorin	01.08.2005
190	TN/TI/55846	M/s Muthu Cooler Service, Tuticorin	01.07.2006
191	TN/AMB/66090	M/s Women's Education & Economic Development Trust, Chennai	01.03.2006
192	TN/VL/74174	M/s Parthiban Engg. Works, Katpadi	01.07.2006
193	TN/PDY/1536	M/s Kanganayar Enterprises (P) Ltd, Chennai	01.05.2006
194	KR/KC/21401	M/s Sirajul Uloom English School, Trichur	01.03.2006
195	KR/KC/21551	M/s Kerala H. C. Advocates' Assn. Kochi	01.09.2006
196	KR/KC/21462	M/s Live Print Offset Inc, Kochi	01.07.2006
197	KR/KC/21512	M/s Hi-Tech Coatings, P.T. Usha Road, Kochi	01.04.2006
198	KR/KC/21594	M/s Venece Polymers, Alleppey	12.12.2006
199	KR/KC/21590	M/s Ohm Sankar Ceramics, Trichur	01.12.2006
200	KR/TVM/22142	M/s Rahul Motor Service, Trivandrum	01.01.2006
201	KR/TVM/2069	M/s M.G.K - Net, Trivandrum	01.02.2005
202	KR/KK/17868	M/s Kanjikode Apparel Exports Ltd, Palakkad	01.02.2004
203	KR/KK/23256	M/s Skill Devp. & Computer Centre, Calicut	01.11.2006
204	KR/KC/21537	M/s Prathibha Clay Products, Trichur	22.09.2006
205	KR/KC/21540	M/s Everest Pharma, Trichur	11.09.2006
206	KR/KC/21437	M/s Nishant Export, Cochin	01.05.2006
207	KR/KC/21495	M/s Purandara Sales Agencies, Ernakulam	24.07.2006
208	KR/TVM/22121	M/s Dr. Nathanis Diagnostic Clinic, Pattam	01.09.2005
209	KR/KC/21439	M/s S N A Ayurveda Nursing Home Pvt. Ltd, Trichur	22.05.2006
210	KR/KC/21477	M/s Vinoos Park, Cherthala, Alleppey Dist.	01.07.2006
211	KR/KC/21475	M/s M R Tourist Home, Vellangallur, Trichur	01.07.2006
212	KR/KK/17811	M/s Sreerama Scaffold Systems, Palakkad	01.11.2003
213	KR/KK/17774	M/s J.R. & Co., Wandoor, Malappuram Dist.	01.05.2003
214	KR/TVM/22062	M/s Electronet, Kesavadasapuram, TVM	01.02.2005
215	KR/KC/19973	M/s Skilled Construction Co. Ltd, Kochi	01.07.2004
216	KR/KC/21450	M/s Ramakrishna Ceramics, Trichur	01.06.2006
217	KR/KC/21455	M/s Lord's Academy School, Trichur	16.06.2006
218	KR/KC/21224	M/s UAE Exchange Centre, Kochi	01.06.2005
219	KR/KK/21144	M/s Kallas Fabricators, Kochi	01.02.2005
220	KR/TVM/22218	M/s SRC Software Pvt. Ltd, TVM	01.05.2006
221	KR/KC/21248	M/s Essar Engineering, Trichur	01.09.2005
222	KR/KC/21213	M/s Prayukthi Power, Kallor, Kochi	02.05.2005
223	KR/KC/21413	M/s Centour Travels, Chengannur	01.03.2006
224	KR/KK/23111	M/s Hidaya Public School, Kozhikode-19.	01.03.2006

1	2	3	4
225	AP/KDP/50074	M/s The Nandyal Central Ware Housing Corp. Hamallis Labour Contract Co-op. Society Ltd, Nandyal	01.04.2005
226	AP/KDP/50080	M/s Star Microfin Service Society, Velgode, Kumool Dist.	01.06.2005
227	AP/RJY/28456	M/s G.Kothapalli Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd, G.Kothapalli	01.10.1995
228	AP/RJY/28469	M/s Social Service Centre, Xavier Nagar, Eluru	01.03.1995
229	AP/KDP/50023	M/s Ananta Paryavarana Parirakshana Samithi, Anantapur	01.03.2005
230	AP/KDP/50119	M/s Cane Development Council, B.N.Kandiriga	01.07.2005
231	AP/KDP/50154	M/s Sai Management Solutions, Tirupati	01.10.2005
232	AP/RJY/27259	M/s S.R. Engineering Associates, Kakinada	01.05.1995
233	AP/RJY/46679	M/s Chataparru Large Sized Co-op. Society Ltd, Chatanuru	01.07.2005
234	AP/VSP/45762	M/s The S.Kota Co-op. Stores Ltd, Vizianagaram	01.11.2004
235	AP/HY/47742.	M/s Sri Venkataramana Iron & Hardware Merchant, Kothakota	01.10.2004
236	AP/HY/52416	M/s Van Mcnell Precision Manufacturing Pvt Ltd, Hyderabad - 76	01.12.2005
237	AP/HY/51411	M/s DWACUA Swayam Krushi Mahila Mandali, Hyderabad - 80	16.02.2005
238	AP/HY/51007.	M/S AIRO Services, Hyderabad-62	01.02.2005
239	AP/HY/50546.	M/s Nandi Aggro Products, Hyderabad - 51	01.02.2005
240	AP/HY/47837.	M/s Unit Run Canteen No.1, EME Centre, Secunderabad-87	01.10.2004
241	AP/HY/52371.	M/s Albany Molecular Research Hyderabad Research Centre Pvt.Ltd, R.R.Dist-78	01.11.2005
242	AP/KKP/46420	M/s Sri Vasavi Chemical Corporation, Hyderabad-73	01.03.2005
243	AP/KKP/46439	M/s Shivanthi Financial Services Pvt Ltd, Hyderabad	01.03.2005
244	AP/KKP/46468	M/s Fire Safety Security Services, Hyderabad-73	01.03.2005
245	AP/GNT/49034	M/s Kondapavuluru Primary Agricultural Co-op. Credit Society, Kondapavuluru	01.03.2006
246	AP/GNT/49038.	M/s Gannavaram Mandalam Mahatma Gandhi Co-op. Building Society Ltd, Gannavaram	01.03.2006
247	AP/GNT/49039.	M/s The Pedavutapalli Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd, Pedavutapalli	01.03.2006
248	AP/GNT/39911	M/s Sivaganga Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd, Chintamuntapalem	01.05.2002
249	AP/KDP/50146.	M/s Sri Sathya Sai Institute of Higher Medical Sciences Welfare Society, Anantapur Dist.	01.10.2005
250	AP/KDP/50155	M/s The Anantapur Sathyanarayana Nidhi Ltd, Anantapur	01.10.2005
251	AP/VSP/45737.	M/s Shiridi Sai Educational Society, Vizianagaram	01.03.2005
252	AP/RJY/46760	M/s Bobba Chinna Veeranna Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd, Alamuru	01.04.2006
253	AP/RJY/46836	M/s Raghavapuram Primary Agricultural Co-op.Society, Raghavanuram	01.08.2006

1	2	3	4
254	AP/KRM/52521	M/s SRI RAJA RAJESHWARA ASSOCIATION OF MENS THRIFT CO.OPERATIVE PODUPU SAMITHI, PORANDLA, KARIMNAGAR DIST.	01.07.2005
255	AP/KRM/52525	M/S ARUNODAYA CHITS(R) VAVILALAPALLY, KARIMNAGAR DIST.	01.09.2005
256	AP/KRM/52531	M/S VISHWA BHARATHI MAHILA PODUPU SAMITHI, KOTHAPALLY(V), KARIMNAGAR DIST.	01.09.2005
257	AP/KRM/52522	M/s Pratiba Mahila Podupu Samithi, Karimnagar Dist.	01.07.2005
258	AP/KKP/51704	M/s The Adarsh Co-op Urban Bank Ltd, R.R.Dist.	01.06.2005
259	AP/KKP/51654.	M/s Expicor Pharma Pvt.Ltd, First Floor, Plot No.80 & 81, APTC, Balanagar, Hyderabad.	01.07.2005
260	AP/51324	M/s Sun Security Services, Secunderabad	18.02.2005
261	AP/52010	M/s Jaligama Engineering Company Pvt Ltd, Cherlapally, Hyderabad	01.06.2005
262	AP/52036	M/s Janapriya Waddera L.C.C.S. Ltd, Saidabad, Hyderabad	01.04.2005
263	AP/52055	M/s Siddhartha Constructions, Moula Ali, Hyderabad	01.07.2005
264	AP/52057	M/s Sri Balaji Enterprises, ECIL, Hyderabad	12.01.2005
265	AP/52204	M/s Deal Well Chitfund Pvt. Ltd, Dilsukhnagar, Hyderabad	09.08.2005
266	AP/52210	M/s Sun Electronics, Malakpet, Hyderabad	01.08.2005
267	AP/52442	M/s Centre of Plant Engineering Services, Secunderabad	01.12.2005
268	AP/53041	M/s Achtung Security Services, Sainikpuri, Secunderabad	01.02.2006
269	AP/53315	M/s Centre for Sustainable Agriculture, Tarnaka, Secunderabad	01.03.2006
270	AP/53464	M/s The Sangamitra Co-op. Urban Bank Ltd, Nalgonda	01.04.2006
271	AP/56026	M/s The Rajoli Handloom Weavers Co-op. Production & Sales Society Ltd. Rajoli, MBNR District.	01.04.2006
272	AP/56095	M/s Anjali Logistics (P) Ltd, Nagole, Hyderabad	01.07.2006
273	AP/53292	M/s Sameera Travels & Tours Pvt Ltd, Secunderabad	01.01.2006
274	AP/51319	M/s SwamAndhra Security Services, Sainikpuri, Secunderabad	02.03.2005
275	AP/51431	M/s Creative Flextech, Cherlapally, Hyderabad	01.09.2004
276	AP/53671	M/s Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd., Alair, NIG Dist.	01.08.2006
277	AP/53939	M/s Primesoft I.P. Solutions Pvt. Ltd., Begumpet, Hyderabad	12.10.2006
278	AP/KDP/54546	M/s Arlabanda Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd., Arlabanda Village, Kurnool Dist.	01.08.2006
279	KN/26783	M/s Austin Medical Solutions (P) Ltd. Bangalore.	01.02.2005
280	KN/Pny/29397	M/s Search (I) Pvt. Ltd., Bangalore.	26.09.2002
281	KN/Pny/29657	M/s Sai Power Tech, Bangalore	01.04.2004

1	2	3	4
282	KN/41002	M/s Gold coin Farms & Housing Developers Ltd., Bangalore	01.01.2005
283	KN/26602	M/s Human Capital Consulting (P) Ltd., Bangalore	01.10.2004
284	KN/41047	M/s Synfora India Engg. Centre Pvt. Ltd., Bangalore	01.05.2005
285	KN/41016	M/s Truespan Semiconductor Tech. Pvt. Ltd., Bangalore	01.05.2005
286	KN/26662	M/s IBP Auto Services, Bangalore	01.11.2004
287	KN/26676	M/s PVSU Software Tech. (I) Pvt. Ltd., Bangalore	01.11.2004
288	KN/26777	M/s Maruthi R Ram, Bangalore	02.11.2004
289	KN/26659	M/s. Kern-Liebers (I) Pvt. Ltd., Bangalore	01.12.2004
290	KN/26671	M/s Mentor Graphics (Sales & Services) Pvt. Ltd., Bangalore	01.10.2004
291	KN/26653	M/s Bose Techonology Centre (P) Ltd., Bangalore	01.05.2004
292	KN/26935	M/s Power People, Bangalore	01.04.2005
293	KN/26656	M/s A.S.P. Consultancy, Bangalore	01.11.2004
294	KN/41116	M/s Object Technologies, Bangalore	01.07.2005
295	KN/26779	M/s Chemicals & Associates, Bangalore	01.12.2004
296	KN/44010	M/s Trishul Security Services, Bangalore	01.04.2005
297	KN/41080	M/s Pixel Softek Pvt. Ltd., Bangalore	01.07.2005
298	KN/41083	M/s Swarna Bharathi Sahakara Bank, Bangalore	01.07.2005
299	KN/41051	M/s Primavera Projects-N-Constructions Ltd., Bangalore	01.06.2005
300	KN/41074	M/s Paywatch Pension & Payroll Services (P) Ltd., Bangalore	01.06.2005
301	KN/26723	M/s Prabhudhan Rural Development Trust, Bangalore	01.11.2004
302	KN/26649	M/s Travtech Software Pvt. Ltd., Bangalore	01.11.2004
303	KN/41117	M/s Gesco South Realty Pvt. Ltd., Bangalore	01.05.2005
304	KN/25815	M/s Network Appliances System(I) Pvt. Ltd., Bangalore	01.12.2002
305	KN/29335	M/s Magnetics Corporation of India, Bangalore	01.11.2002
306	KN/38191	M/s Kunthoor Padaw Milk Producers Co-op. Society Ltd., Puttur	01.01.2005
307	KN/38222	M/s Vikram Print 'N' Pack, Mangalore	01.02.2005
308	KN/38215	M/s Vikram Printing Inks, Mangalore	01.02.2005
309	KN/38001	M/s Shree Cheerumba Credit Co-op. Society Ltd., Mangalore	01.09.2003
310	KN/38207	M/s Gloria Credit Co-op. Society Ltd., Mangalore	01.01.2005

1	2	3	4
311	KN/28298	M/s Kustagi Pattana Sahakara Bank Ltd., Kustagi	01.04.2005
312	KN/41349	M/s. Montalvo Computer Systems India Ltd., Bangalore	01.12.2005
313	KN/41330	M/s.Zinnov Management Consulting Pvt. Ltd., Bangalore	01.11.2005
314	KN/26795	M/s.S K Fabricators, Bangalore	01.02.2005
315	KN/26959	M/s.Srinagar Credit Co-op. Society Ltd., Bangalore	01.05.2005
316	KN/26965	M/s.Greenfield Networks Technologies Pvt. Ltd., Bangalore	30.04.2005
317	KN/26724	M/s.Prime Construction Company, Bangalore	01.01.2005
318	KN/26639	M/s.Hitachi Data Systems India Pvt. Ltd., Bangalore	01.08.2004
319	KN/41013	M/s.Sytron Sales, Bangalore	01.04.2005
320	KN/26369	M/s.Sri Enterprises, Bangalore	01.02.2005
321	KN/41259	M/s.Ganex India Marketing Pvt. Ltd., Bangalore	01.08.2005
322	KN/41154	M/s.MMC Metal Singapore PTE Ltd., Bangalore	01.08.2005
323	KN/26728	M/s.Shree Constructions, Bangalore	01.12.2004
324	KN/41257	M/s.Marks & Spencer (India) Ltd., Bangalore	01.10.2005
325	KN/41311	M/s.Integral Personnel Management Consultants, Bangalore	01.11.2005
326	KN/41103	M/s.Marks & Spencer South Asia Liason Office, Bangalore	01.07.2005
327	KN/41559	M/s.Sridhar Electrical Works, Bangalore	01.04.2005
328	KN/41252	M/s.Poornima Travels, Bangalore	01.09.2005
329	KN/41063	M/s.Karnataka Regional Chapter Institute of Town Planners India, Bangalore	01.04.2005
330	KN/41118	M/s.Cyber Media Dice Careers Ltd., Bangalore	01.05.2005
331	KN/41050	M/s.Spirez Communications (India) Pvt. Ltd.	01.05.2005
332	KN/41297	M/s.De Controls, Bangalore	01.11.2005
333	KN/41208	M/s.E2E Business Solutions Pvt. Ltd., Bangalore	01.09.2005
334	KN/41291	M/s.Marketing Solutions & Services Pvt. Ltd., Bangalore	31.10.2005
335	KN/41195	M/s.Hampson Maini Enng. Pvt. Ltd., Bangalore	01.09.2005
336	KN/41391	M/s.Griffith Laboratories Pvt. Ltd., Bangalore	01.11.2005
337	KN/41401	M/s.G S G Electronics, Bangalore	01.12.2005
338	KN/41206	M/s.Sri Jayachamaraja Credit Co-op. Society Ltd., Bangalore	01.09.2005
339	KN/26453	M/s.Coffee Lab (P) Ltd., Bangalore	01.07.2004
340	KN/26948	M/s.Dentsu Communications Pvt. Ltd., Bangalore	01.04.2005
341	KN/41249	M/s.Divya Jyothi Credit Co-op. Society Ltd., Bangalore	01.10.2005
342	KN/29833	M/s.A K Engineers, Bangalore	22.12.2004
343	KN/29773	M/s.Canara Forklift Services, Bangalore	01.09.2004
344	KN/29347	M/s.N R Industry, Bangalore	01.09.2002
345	KN/41285	M/s.OJOS Internet Technologies Pvt. Ltd.	01.10.2005
346	KN/41284	M/s.Zero 260 Management Services Pvt. Ltd., Bangalore	01.10.2005
347	KN/26679	M/s.Maniula Enterprises, Bangalore	01.11.2004
348	KN/26678	M/s.Chandra Electricals and Rewinders, Devanahalli	01.10.2004
349	KN/26483	M/s.M P Care & Clean Services, Bangalore	01.07.2004
350	KN/29293	M/s.Shristi Special Academy, Bangalore	01.06.2002
351	KN/29421	M/s.J L Engineering Industries, Bangalore	01.01.2003
352	KN/38108	M/s.Haklady Milk Producer's Co-op Society Ltd., Kundanura To.	01.06.2004

1	2	3	4
353	KN.27256	M/s.Veeramaheshwara Credit Co-operative Society Ltd., Devangere	01.12.2002
354	KN/36361	M/s.Sri Mahadeswara Enterprises, Mysore	01.11.2004
355	KN/37132	M/s.PACC Bank, Ghattadahalli, Belur Tq	01.12.2004
356	KN/37146	M/s.Hassan Dist. KPTCL Employees Credit Co-op. Society Ltd., Hassan	01.11.2004
357	KN/36488	M/s.No.461, Co-op. Mahila Samaj, Ponnampet, Coorgh	01.04.2005
358	KN/36504	M/s.No.2802 Ponnampet VSS Bank Ltd., Ponnampet	01.07.2005
359	KN/36496	M/s.The Auto Trading Association, Madikeri	01.05.2005
360	KN/36295	M/s.MCC & MUDA Offices and Employees Co-op. Society Ltd., Mysore	01.06.2004
361	KN/36308	M/s.Shimsha Sahakara Bank Niyamitha, Maddur	01.07.2004
362	KN/36517	M/s.Umamaheshwari Timbers, Gonikoppal	11.08.2005
363	KN/36530	M/s.No.2799 Athithi Mathi Vyavasaya Seva Sahakara Bank Niyamitha: Thithimathi-517254	01.09.2005
364	KN/36006	M/s.Hemmege MPCs Ltd., Hemmege, Mandya Tq.	01.04.2003
365	KN/36278	M/s.Mandya Dist. Credit Co-op. Society Ltd., Mandya	01.05.2004
366	KN/25747	M/s.Simran Travels Pvt. Ltd.	01.01.2003
367	KN/41375	M/s.S L Sourcing Pvt. Ltd., Bangalore	01.12.2005
368	KN/41857	M/s The Millennium Credit Co-op. Society Ltd, Bangalore	01.10.2006
369	KN/45196	M/s Envio Networks India Pvt Ltd, Bangalore	01.10.2006
370	KN/41863	M/s Batman Projects (I) Pvt.Ltd, Bangalore	01.09.2006
371	KN/41783	M/s Karthik Electrical, Bangalore	01.08.2006
372	KN/45190	M/s Allied World Wide Business Solutions Pvt Ltd, Bangalore	01.10.2006
373	KN/36309	M/s Primary Agricultural Credit Co-op. Bank Ltd, Chamara Nagar	01.07.2004
374	KN/36588	M/s Sri Rajeswari Vidyanikethana High School, Devarapura	01.03.2006
375	KN/36516	M/s Vishwaprajna Credit Co-op. Society Ltd, Mysore	01.07.2005
376	KN/36301	M/s The Chamara Nagar District CO-op. Union Ltd, Chamara Nagar	01.07.2004
377	KN/36307	M/s Schedule Tribe Large Sized Multipurpose Co-op. Society Ltd, Gundulpet	01.07.2004
378	KN//36374	M/s Thammadahalli Milk Producers Co-op. Society Ltd, Chamara Nagar	01.12.2004
379	KN/36375	M/s Uttarahalli Milk Producers Co-op. Society Ltd, Chamara Nagar	01.12.2004
380	KN/41640	M/s Supraja Soudharda Cr. Co-op. Ltd, Bangalore	01.05.2006
381	KN/45169	M/s Japan CBM Corporation (I) Pvt, Ltd, Bangalore	01.07.2006
382	KN/41472	M/s Akash Transmissions Pvt, Ltd, Bangalore	01.02.2006
383	KN/41316	M/s Anjana Transport, Bangalore	01.11.2005
384	KN/41841	M/s Vyuha Software Solutions Pvt. Ltd, Bangalore	01.09.2006
385	KN/41448	M/s C. Krishniah Chetty and Sons, Bangalore	01.12.2005
386	KN/38363	M/s Logix Work Software Services Pvt Ltd, Mangalore	05.01.2006
387	KN/45178	M/s Plexus Microelectronics (P) Ltd, Bangalore	01.08.2006
388	KN/41800	M/s Batman Engineering (I) Pvt. Ltd, Bangalore	01.09.2006
389	KN/35901	M/s Millennium Polymers Pvt LTd, Hoskot	01.08.2005
390	KN/MYS/36714	M/s Virajpet Pattan Sahakara Bank Niyamitha, Virajpet	01.09.2006

1	2	3	4
391	KN/MYS/36727	M/s Ponnampet Town Co-op. Bank (N), Ponnampet.	01.11.2006
392	KN/MYS/36705	M/s No.2757, Abhyathmangala V.S.S.Bank Ltd, Nelliahudikeri, Kodagu	01.09.2006
393	KN/MYS/36719	M/s Bio-Chem Diagnostic Laboratory, Mysore	01.10.2006
394	KN/MYS/36720	M/s Bio-Chem Diagnostic and Research Lab, Mysore	01.10.2006
395	KN/BNG/41852	M/s S.G.S.Engineering Works, Bangalore	01.09.2006
396	KN/MNG/38435	M/s Automation Info Solution, Mangalore	01.10.2006
397	KN/MYS/36359	M/s Milk Producers Co-operative Society Ltd, Chamarajanagar	01.11.2004
398	KN/MYS/36480	M/s Scheduled Tribe Large Sized Multipurpose Co-op. Society Ltd, Chamarajanagar	01.05.2005
399	KN/MNG/15376	M/s Muddebihal Taluk Agricultural Produce Co-op. Marketing Society Ltd, Muddebihal.	01.08.1992
400	KN/BNG/41658	M/s ACMA Travel Tours Pvt Ltd, Bangalore	01.06.2006
401	KN/BNG/41793	M/s Thomas White India Pvt Ltd, Bangalore	01.07.2006
402	KN/BNG/41850	M/s Aruba Wireless Networks India Pvt Ltd, Bangalore	01.09.2006
403	KN/BNG/41894	M/s Devas Multimedia Pvt Ltd, Bangalore	01.10.2006
404	KN/BNG/41775	M/s Patils Alpha Air Travels, Bangalore	01.09.2006
405	KN/BNG/41871	M/s Kawasaki Micro Electronics Inc. India Branch, Bangalore	01.10.2006
406	KN/MNG/38412	M/s Sical Abrasives, Udupi	01.07.2006
407	KN/MYS/36272	M/s Ummathur Milk Producers Co-op. Society Ltd, Ummathur	01.06.2004
408	KN/MNG/38419	Ms Kedila Seva Sahakari Bank Ltd,	01.08.2006
409	KN/MYS/36352	M/s Primary Agricultural Credit Co-op. Bank Ltd, Chamarajnagar	01.10.2004

Now, therefore, in exercise of the powers Conferred by Sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments

U.C. TEWARI
ADDITIONAL CENTRAL P.F. COMMISSIONER(SZ)